



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



# PATRIOTIC IAS

**THE HINDU NEWSPAPER**  
**DAILY CURRENT AFFAIRS**  
**09 APRIL 2025**

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

09\_04\_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography)

1. RGI flags delay by hospitals in reporting births and deaths

जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग में अस्पतालों की देरी पर आरजीआई ने जताई आपत्ति

2. BJP suspends former MLA for 'purifying' Alwar temple after Dalit leader's visit

दलित नेता की यात्रा के बाद अलवर मंदिर को 'शुद्ध' करने पर भाजपा ने पूर्व विधायक को निलंबित किया

3. India, UAE to deepen defence cooperation

भारत और यूएई रक्षा सहयोग को गहरा करेंगे

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)**



#### 4. CWC adopts resolution to walk the path shown by Vallabhbhai Patel

सीडब्ल्यूसी ने वल्लभभाई पटेल द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रस्ताव पारित किया

#### 5. Congress insulted Ambedkar, never gave Patel his due: BJP

कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया, पटेल को कभी उनका हक नहीं दिया: भाजपा

#### 6. Skymet forecasts 'normal' monsoon; 'La Nina' weak

स्काइमेट ने 'सामान्य' मानसून की भविष्यवाणी की; 'ला नीना' कमजोर

## RGI flags delay by hospitals in reporting births and deaths

**GS Paper I: Population**

**Vijaita Singh**  
NEW DELHI

The Registrar-General of India's (RGI) office has cautioned private and government hospitals that they must report incidents of birth and death within 21 days, after it was found that many medical institutions were flouting the law, delaying universal registration. Instead of immediately reporting births and deaths, many hospitals are waiting for relatives to request it or even directing relatives to report it themselves, the RGI said.

In a March 17 circular, the RGI's office said that 90% of birth or death events are getting registered in India and significant progress has been made towards the goal of

universal registration. However, "the target of 100% registration of births and deaths is yet to be achieved."

"One of the primary reasons for non-realisation of the goal of universal registration is non-reporting of birth and death events by some hospitals, be it private or government, as per the provisions of RBD," the circular said.

#### 'Punishable negligence'

The RGI, which comes under the Union Home Ministry's authority, said in a communication to all States that, as per Section 23(2) of the Registration of Birth and Death (RBD) Act, "negligence by the registrar in registering any birth or death" is punishable with a fine.



With Census being delayed, the statistics obtained through civil registration records enable estimation of population. FILE PHOTO

The RBD Act, 1969, which was amended in 2023, mandates the registration of all births and deaths on the Centre's portal from October 1, 2023.

Under the Civil Registration System (CRS), the Centre's online portal, government hospitals have

been entrusted with the responsibility of functioning as registrars.

"It has been observed that some of them do not register the events as required under the Act, but wait for the relative of the child or the deceased to approach them and the-

reafter, they begin the process of registration. Instances have also been reported that some private hospitals don't report birth and death events to the concerned registrar...It has also been reported that some of the private hospitals deny the reporting of events and advise the relatives to report it himself/herself directly to the concerned registrar," the circular said.

#### Certificates in 7 days

With the last decadal Census exercise last conducted in 2011 and the next Census pending since 2021, the vital statistics obtained through civil registration records at different administrative levels enable the estimation of population.

The RGI also asked the

registrars to issue birth and death certificates to citizens within seven days. From October 1, 2023, the digital birth certificate is the single document to prove the date of birth for various services such as admission to educational institutions, government jobs, marriage registration, among others.

The centralised database will be used to update the National Population Register (NPR), ration cards, property registration, and electoral rolls.

The RGI has not released the 'Vital Statistics of India Based on the Civil Registration System' and 'The Report on Medical Certification of Cause of Death' since 2020. The last released reports pertained to the year 2019.

## RGI flags delay by hospitals in reporting births and deaths

जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग में अस्पतालों की देरी पर आरजीआई ने जताई आपत्ति



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



The **Registrar-General of India's (RGI)** office has cautioned private and government hospitals that they **must report incidents of birth and death within 21 days**, after it was found that many medical institutions were flouting the law, delaying universal registration.

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के कार्यालय ने सरकारी और निजी अस्पतालों को चेतावनी दी है कि वे 21 दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्ट करें, क्योंकि कई चिकित्सा संस्थान कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे सार्वभौमिक पंजीकरण में देरी हो रही है।

• Instead of immediately reporting births and deaths, many hospitals are waiting for **relatives to request it** or even directing relatives to report it themselves, the RGI said.

RGI ने कहा कि कई अस्पताल तुरंत रिपोर्ट करने के बजाय **रिश्तेदारों के अनुरोध** का इंतजार करते हैं या रिश्तेदारों को स्वयं रिपोर्ट करने के लिए कह देते हैं।

• In a **March 17** circular, the RGI's office said that **90% of birth or death events are getting registered in India** and **significant progress** has been made towards the goal of **universal registration**.

17 मार्च के एक सर्कुलर में RGI कार्यालय ने कहा कि भारत में **90%** जन्म और मृत्यु की घटनाएं पंजीकृत हो रही हैं और सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की दिशा में **महत्वपूर्ण प्रगति** हुई है।

• However, "the target of **100% registration** of births and deaths is yet to be achieved." हालांकि, **100% पंजीकरण** का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है।

• "One of the primary reasons for non-realisation of the goal of **universal registration** is **non-reporting** of birth and death events by some hospitals, be it **private or government**, as per the provisions of **RBD**," the circular said.

सर्कुलर में कहा गया कि **सार्वभौमिक पंजीकरण** के लक्ष्य को पूरा न करने के प्रमुख कारणों में से एक है कि कुछ निजी और सरकारी अस्पताल, RBD कानून के प्रावधानों के अनुसार जन्म और मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं।

### 'Punishable negligence'

#### 'दंडनीय लापरवाही'

• The **RGI**, which comes under the **Union Home Ministry's** authority, said in a communication to all States that, as per **Section 23(2) of the Registration of Birth and Death (RBD) Act**, "negligence by the registrar in registering any birth or death" is **punishable with a fine**.

गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले RGI ने सभी राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा कि **जन्म और मृत्यु पंजीकरण**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



अधिनियम (RBD) की धारा 23(2) के अनुसार, जन्म या मृत्यु का पंजीकरण करने में रजिस्ट्रार की लापरवाही दंडनीय है और इसमें जुर्माना लगाया जा सकता है।

• The **RBD Act, 1969**, which was amended in **2023**, mandates the registration of all births and deaths on the **Centre's portal** from **October 1, 2023**.

1969 का RBD अधिनियम, जिसे 2023 में संशोधित किया गया, के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से सभी जन्म और मृत्यु की घटनाओं को केंद्र के पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है।

• Under the **Civil Registration System (CRS)**, the **Centre's online portal**, **government hospitals** have been entrusted with the responsibility of functioning as **registrars**.

सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS) के तहत, जो केंद्र का ऑनलाइन पोर्टल है, सरकारी अस्पतालों को रजिस्ट्रार के रूप में काम करने की जिम्मेदारी दी गई है।

• "It has been observed that some of them do not register the events as required under the Act, but **wait for the relative of the child or the deceased to approach them** and thereafter, they begin the process of registration."

यह देखा गया है कि कुछ अस्पताल अधिनियम के अनुसार घटनाओं को पंजीकृत नहीं करते, बल्कि बच्चे या मृत व्यक्ति के परिजन के पास आने का इंतजार करते हैं और फिर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करते हैं।

• Instances have also been reported that some **private hospitals** don't report birth and death events to the concerned **registrar**.

यह भी रिपोर्ट किया गया है कि कुछ निजी अस्पताल, जन्म और मृत्यु की घटनाएं संबंधित रजिस्ट्रार को रिपोर्ट नहीं करते हैं।

• It has also been reported that some of the **private hospitals** deny the reporting of events and advise the relatives to report it himself/herself directly to the **concerned registrar**.

यह भी बताया गया है कि कुछ निजी अस्पताल घटनाओं की रिपोर्टिंग से इनकार कर देते हैं और परिजनों को सलाह देते हैं कि वे सीधे संबंधित रजिस्ट्रार के पास जाकर खुद रिपोर्ट करें।

## Certificates in 7 days

### 7 दिनों में प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश

• With the last **decadal Census** exercise last conducted in **2011** and the next Census pending since **2021**, the vital statistics obtained through **civil registration records** at different administrative levels enable the estimation of **population**.

पिछली दशकीय जनगणना 2011 में हुई थी और अगली जनगणना 2021 से लंबित है, ऐसे में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर सिविल पंजीकरण रिकॉर्ड से प्राप्त महत्वपूर्ण आंकड़े जनसंख्या के अनुमान में सहायक होते हैं।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The **RGI** also asked the registrars to issue **birth and death certificates** to citizens **within seven days**.

**RGI** ने रजिस्ट्रारों को निर्देश दिया है कि नागरिकों को **7 दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र** जारी किए जाएं।

- From **October 1, 2023**, the **digital birth certificate** is the **single document** to prove the **date of birth** for various services such as **admission to educational institutions, government jobs, marriage registration**, among others.

**1 अक्टूबर 2023** से, **डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि** को प्रमाणित करने के लिए **शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरी, विवाह पंजीकरण** आदि सहित विभिन्न सेवाओं के लिए **एकमात्र दस्तावेज** माना जाएगा।

- The **centralised database** will be used to update the **National Population Register (NPR), ration cards, property registration, and electoral rolls**.

यह **केंद्रीकृत डेटाबेस, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची** को अपडेट करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

- The **RGI** has not released the '**Vital Statistics of India Based on the Civil Registration System**' and '**The Report on Medical Certification of Cause of Death**' since **2020**.

**RGI** ने **2020** के बाद से '**सिविल पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े**' और '**मृत्यु के कारण की चिकित्सा प्रमाणन रिपोर्ट**' जारी नहीं की हैं।

- The last released reports pertained to the year **2019**.

अंतिम रिपोर्ट **2019** वर्ष से संबंधित थी।



# BJP suspends former MLA for 'purifying' Alwar temple after Dalit leader's visit

GS Paper I: Society

The Hindu Bureau  
JAIPUR

The ruling Bharatiya Janata Party in Rajasthan on Tuesday suspended its senior leader and former three-time MLA Gyan Dev Ahuja from the party's primary membership after he claimed to have "purified" a temple in Alwar following the visit of a Dalit Congress leader. Mr. Ahuja, 74, had sprinkled Ganga water on the premises as a ritual to cleanse the Ram temple.



Gyan Dev Ahuja

Mr. Ahuja had claimed that the newly constructed Ram temple had become impure after the Leader of the Opposition in the Assembly, Tikaram Jolly, attended its consecration ceremony on Ram Navami. Mr. Jolly condemned the BJP leader's "purification stunt", saying it was not only an attack on his faith but also an effort to promote the crime of untouchability.

## Outrage, protests

Mr. Ahuja's act led to an outrage and sparked protests in several towns of the State, as the Congress party workers accused the BJP of being an anti-Dalit party. Former Chief Minister Ashok Gehlot said the incident reflected the BJP's "narrow-mindedness" towards Dalits, which was unacceptable in the 21st Century.

Along with the suspension, the BJP issued a show cause notice to Mr. Ahuja,

asking him to give a written explanation of his conduct within three days, failing which further disciplinary action would be taken. BJP State general secretary and MP Damodar Agarwal said in the notice that Mr. Ahuja's act had tarnished the image of the party among the public.

Mr. Jolly is the first Dalit politician in Rajasthan to become the Leader of Opposition. The notice reminded Mr. Ahuja of his oath not to discriminate anyone on the ground of caste, gender and religion when he took the BJP's membership.

The BJP's swift action in the matter was perceived as an attempt to contain the backlash amid the party's unease on being seen as anti-Dalit. Mr. Ahuja's act was likely to harm the ruling party's prospects in eastern Rajasthan, where Dalit voters play a key role.

BJP suspends former MLA for 'purifying' Alwar temple after Dalit leader's visit

दलित नेता की यात्रा के बाद अलवर मंदिर को 'शुद्ध' करने पर भाजपा ने पूर्व विधायक को निलंबित किया

The ruling Bharatiya Janata Party in Rajasthan on Tuesday suspended its senior leader and former three-time MLA Gyan Dev Ahuja from the party's primary membership after he claimed to have "purified" a temple in Alwar following the visit of a Dalit Congress leader.

राजस्थान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने

वरिष्ठ नेता और पूर्व तीन बार के विधायक ज्ञान देव आहूजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने दलित कांग्रेस नेता की यात्रा के बाद अलवर के एक मंदिर को "शुद्ध" करने का दावा किया था।

• Mr. Ahuja, 74, had sprinkled Ganga water on the premises as a ritual to cleanse the Ram temple.

74 वर्षीय आहूजा ने राम मंदिर को शुद्ध करने के लिए वहां गंगाजल छिड़का था।

## Outrage, protests

गुस्सा और विरोध प्रदर्शन



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• Mr. Ahuja's act led to an **outrage** and sparked **protests** in several towns of the State, as the **Congress party workers** accused the **BJP** of being an **anti-Dalit party**.

आहूजा की इस हरकत से राज्य के कई शहरों में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर दलित विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया।

• Former Chief Minister **Ashok Gehlot** said the incident reflected the BJP's "**narrow-mindedness**" towards **Dalits**, which was **unacceptable in the 21st Century**.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह घटना दलितों के प्रति भाजपा की "संकीर्ण मानसिकता" को दर्शाती है, जो 21वीं सदी में अस्वीकार्य है।

• Mr. Ahuja had claimed that the **newly constructed Ram temple** had become **impure** after the **Leader of the Opposition, Tikaram Jully**, attended its **consecration ceremony on Ram Navami**.

आहूजा ने दावा किया था कि राम नवमी पर विपक्ष के नेता तिकराम जूली द्वारा नई निर्मित राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से वह अपवित्र हो गया था।

• Mr. Jully condemned the BJP leader's "**purification stunt**", saying it was not only an **attack on his faith** but also an **effort to promote the crime of untouchability**.

जूली ने भाजपा नेता के इस "शुद्धिकरण नाटक" की निंदा करते हुए कहा कि यह सिर्फ उनके विश्वास पर हमला नहीं बल्कि अस्पृश्यता जैसे अपराध को बढ़ावा देने का प्रयास भी है।

• Along with the **suspension**, the **BJP** issued a **show cause notice** to Mr. Ahuja, asking him to give a **written explanation** of his conduct within **three days**, failing which further **disciplinary action** would be taken.

निलंबन के साथ ही भाजपा ने ज्ञान देव आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे कहा गया कि वे तीन दिनों के भीतर अपने आचरण पर लिखित स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

• **BJP State general secretary and MP Damodar Agarwal** said in the notice that Mr. Ahuja's act had **tarnished the image of the party** among the public.

भाजपा के राज्य महासचिव और सांसद दामोदर अग्रवाल ने नोटिस में कहा कि आहूजा की हरकत से जनता में पार्टी की छवि धूमिल हुई है।

• Mr. Jully is the **first Dalit politician in Rajasthan** to become the **Leader of Opposition**.

राजस्थान में तिकराम जूली पहले दलित नेता हैं जो विपक्ष के नेता बने हैं।

• The notice reminded Mr. Ahuja of his **oath not to discriminate anyone** on the grounds of **caste, gender and religion** when he took the BJP's membership.

नोटिस में आहूजा को याद दिलाया गया कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेते समय जाति, लिंग और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करने की शपथ ली थी।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• The **BJP's swift action** in the matter was perceived as an **attempt to contain the backlash** amid the party's unease on being seen as **anti-Dalit**.

इस मामले में भाजपा की त्वरित कार्रवाई को दलित विरोधी छवि से बचने और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के प्रयास के रूप में देखा गया।

• Mr. Ahuja's act was likely to harm the ruling party's prospects in eastern Rajasthan, where **Dalit voters** play a **key role**.

आहूजा की इस हरकत से पूर्वी राजस्थान में सत्तारूढ़ पार्टी की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, जहां दलित मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

India, UAE  
to deepen  
defence  
cooperation

GS Paper I: Mapping

Kallol Bhattacharjee

GS Paper II:

India-UAE

India and the UAE on Tuesday agreed that "close cooperation between the defence industries" should be an "integral part" of the bilateral cooperation, the government said in a press note after Defence Minister Rajnath Singh met visiting Deputy Prime Minister and Defence Minister Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

"The two leaders expressed satisfaction on the active Coast Guard to Coast Guard cooperation and committed to further deepen it by formalising the same through an MoU," the press note read.

Mr. Singh said the Comprehensive Strategic Partnership with the UAE was of "immense priority" for India, adding, "In the coming years, we are eager to work closely in areas such as defence cooperation, co-production and co-development projects, innovation and technology. Both India and the UAE are committed to work towards peace and prosperity in the region."

The Crown Prince said, "Our conversations reaffirmed the strength of UAE-India ties which is built on trust, shaped by history, and driven by a shared vision to create a future full of opportunity, innovation, and prosperity."

## India, UAE to deepen defence cooperation

### भारत और यूएई रक्षा सहयोग को गहरा करेंगे

India and the UAE on Tuesday agreed that "**close cooperation between the defence industries**" should be an "integral part" of the bilateral cooperation, the government said in a press note after Defence Minister Rajnath Singh met visiting **Deputy Prime Minister and Defence Minister Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum**.

मंगलवार को भारत और यूएई ने सहमति व्यक्त की कि "**रक्षा उद्योगों के बीच करीबी सहयोग**" को द्विपक्षीय सहयोग का "अभिन्न हिस्सा" बनाया जाना चाहिए, यह बात सरकार ने एक प्रेस नोट में कही जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात की।

• "The two leaders expressed satisfaction on the active **Coast Guard to Coast Guard cooperation** and committed to further deepen it by formalising the same through an **MoU**," the press note read.

प्रेस नोट में कहा गया, "दोनों नेताओं ने सक्रिय कोस्ट गार्ड से कोस्ट गार्ड सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और इसे **समझौता ज्ञापन (MoU)** के माध्यम से औपचारिक रूप देकर और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई।"

• Mr. Singh said the **Comprehensive Strategic Partnership with the UAE was of "immense priority"** for India, adding, "In the coming years, we are eager to work closely in areas such as **defence cooperation, co-production and co-development projects, innovation and technology**."

श्री सिंह ने कहा कि यूएई के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए "अत्यंत प्राथमिकता"

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)

Contact Number : 9971932488

Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



का विषय है। उन्होंने आगे कहा, "आगामी वर्षों में हम रक्षा सहयोग, सह-उत्पादन और सह-विकास परियोजनाएं, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निकटता से कार्य करने के इच्छुक हैं।"

• Both India and the UAE are committed to work towards **peace and prosperity** in the region." भारत और यूएई दोनों ही क्षेत्र में **शांति और समृद्धि** के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

• The Crown Prince said, "Our conversations reaffirmed the strength of **UAE-India ties** which is built on **trust, shaped by history, and driven by a shared vision** to create a future full of **opportunity, innovation, and prosperity.**"

क्राउन प्रिंस ने कहा, "हमारी बातचीत ने यूएई-भारत संबंधों की मज़बूती की पुष्टि की, जो विश्वास पर आधारित, इतिहास द्वारा आकारित और एक साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य अवसर, नवाचार और समृद्धि से भरे भविष्य का निर्माण करना है।"

## CWC adopts resolution to walk the path shown by Vallabhbhai Patel

**GS Paper I: History**

**Sandeep Phukan**  
AHMEDABAD

A meeting of the extended Congress Working Committee (CWC) on Tuesday adopted a resolution committing itself to take the path shown by Sardar Vallabhbhai Patel while attacking the BJP's attempt to hijack his legacy.

"Today, the ideology of violence and communalism is pushing the country into an abyss of hatred, based on the divisions of religious polarisation. Therefore, once again, Congress party is determined to **emulate** the resoluteness of 'Iron man' Sardar Patel by fighting the frenzy of religious polarisation," the CWC resolution read.

The resolution, "Flag-bearer of freedom movement – Our Sardar Vallabhbhai Patel", was a clear attempt to counter the BJP's charge that the Congress had historically neglected the leader.

In his opening remarks to the CWC, party chief Mallikarjun Kharge accused the BJP-RSS combine of trying to "usurp" the legacy of Sardar Patel and other national heroes through a "well-planned conspiracy", and said the Sangh Parivar had made no contribution to the free-



Congress leaders Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Mallikarjun Kharge at the CWC meeting in Ahmedabad on Tuesday. VIJAY SONEJI

dom movement. He said that it was Patel who, as Home Minister, banned the RSS after the assassination of Mahatma Gandhi.

The CWC resolution on Patel added that forces of animosity and division seek to undermine the spirit of camaraderie and bonhomie. "Therefore, once again, the Congress is determined to follow the life principles of Sardar Patel to defeat the forces of animosity and division as also exposing the fake news factory of these elements," it said.

The document asserted that "the ideology of make-believe confrontation and mischievously professed division had led to spreading of a deliberate web of lies of conflict between Sar-

dar Patel and Pandit Jawaharlal Nehru".

"The cobweb of deceit and deception couldn't sustain, for **Sardar Patel himself wrote to Pandit Nehru on August 3, 1947, and unequivocally stated, 'Our attachment and affection for each other and our comradeship for an unbroken period of nearly 30 years admit of no formalities... Our combination is unbreakable and therein lies our strength',**" the CWC resolution said.

Highlighting how Patel had fought against the exploitative British policies, the resolution went on to draw parallels between the colonial rulers and the present-day BJP regime.

"The BJP government of today emulates the cruel

British Policies against the farmers – be it bringing an ordinance to whittle down "the **Right to Fair Compensation Law**" for acquisition of land, the three Anti-Agriculture 'Black Laws' to enslave the farmers, blocking the path of farmers by digging up roads and putting up spikes & wedges, betrayal of the farmers by renegeing on the solemn promise of an MSP guarantee law or crushing the farmers in Lakhimpur Kheri under the Jeeps of BJP leaders as a revenge for demanding justice," it read.

Mr. Kharge said that attention was being diverted from the basic issues of the country by indulging in communal division. "At the same time, oligarchic monopoly is on the path of controlling the government by capturing the resources of the country," he alleged.

**Chidambaram faints**

Congress leader P. Chidambaram fell unconscious during a prayer meet here and was taken to hospital. Sources said he probably fainted due to the heat after a hectic day.

His son Karti later said on X that his father was fine and was being examined by doctors.

(With PTI inputs)

**CWC adopts resolution to walk the path shown by Vallabhbhai Patel**

**सीडब्ल्यूसी ने**

**वल्लभभाई पटेल द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रस्ताव पारित किया**

**A meeting of the extended Congress Working Committee (CWC) on Tuesday adopted a resolution committing itself to take the path shown by Sardar Vallabhbhai Patel while attacking the BJP's attempt to hijack his legacy.**



मंगलवार को हुई विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रस्ताव पारित किया गया, साथ ही पटेल की विरासत को हड़पने के भाजपा के प्रयास पर हमला बोला गया।

• “Today, the ideology of **violence and communalism** is pushing the country into an **abyss of hatred**, based on **religious polarisation**. Therefore, once again, Congress party is determined to emulate the resoluteness of ‘Iron man’ **Sardar Patel** by fighting the **frenzy of religious polarisation**,” the CWC resolution read.

“आज, हिंसा और सांप्रदायिकता की विचारधारा देश को धार्मिक धुवीकरण के आधार पर घृणा की खाई में धकेल रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर ‘लौह पुरुष’ सरदार पटेल की दृढ़ता को अपनाने के लिए संकल्पबद्ध है, और धार्मिक उन्माद से लड़ेगी,” CWC के प्रस्ताव में कहा गया।

• The resolution, “**Flagbearer of freedom movement — Our Sardar Vallabhbhai Patel**”, was a clear attempt to **counter the BJP’s charge** that the Congress had historically **neglected the leader**.

यह प्रस्ताव, “स्वतंत्रता संग्राम के ध्वजवाहक — हमारे सरदार वल्लभभाई पटेल”, भाजपा के इस आरोप का जवाब था कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से इस नेता की उपेक्षा की।

• In his **opening remarks** to the CWC, party chief **Mallikarjun Kharge** accused the **BJP-RSS combine** of trying to “**usurp**” the **legacy of Sardar Patel** and other national heroes through a “**well-planned conspiracy**”, and said the **Sangh Parivar** had made **no contribution to the freedom movement**.

CWC की बैठक में अपने प्रारंभिक भाषण में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा-आरएसएस गठबंधन पर सरदार पटेल और अन्य राष्ट्रीय नायकों की विरासत को हड़पने की साजिश का आरोप लगाया, और कहा कि संघ परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया।

• He said that it was **Patel, who, as Home Minister, banned the RSS after the assassination of Mahatma Gandhi**.

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद गृह मंत्री के रूप में पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था।

• The CWC resolution on Patel added that **forces of animosity and division** seek to undermine the spirit of **camaraderie and bonhomie**.

पटेल पर CWC प्रस्ताव में जोड़ा गया कि विरोध और विभाजन की ताकतें भाईचारे और सौहार्द की भावना को कमजोर करना चाहती हैं।

• “Therefore, once again, the Congress is determined to **follow the life principles of Sardar Patel** to defeat the forces of animosity and division as also exposing the **fake news factory** of these elements,” it said.

“इसलिए, कांग्रेस एक बार फिर सरदार पटेल के जीवन सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए संकल्पबद्ध है,



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



ताकि विरोध और विभाजन की ताकतों को हराया जा सके और इन तत्वों की झूठी खबरों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया जा सके,” प्रस्ताव में कहा गया।

• The document asserted that “the ideology of **make-believe confrontation** and **mischievously professed division** had led to spreading of a **deliberate web of lies** of conflict between **Sardar Patel and Pandit Jawaharlal Nehru**”.

दस्तावेज़ में कहा गया कि “काल्पनिक टकराव की विचारधारा और जानबूझकर फैलाए गए विभाजन ने सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच झूठ के जाल को फैलाया”।

• “The **cobweb of deceit and deception** couldn’t sustain, for **Sardar Patel himself wrote to Pandit Nehru on August 3, 1947**, and unequivocally stated, ‘Our attachment and affection for each other and our comradeship for an unbroken period of nearly **30 years** admit of no formalities... Our combination is unbreakable and therein lies our strength’,” the CWC resolution said.

“यह धोखे और भ्रम का जाल टिक नहीं सका, क्योंकि सरदार पटेल ने स्वयं 3 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को पत्र लिखा और स्पष्ट रूप से कहा, ‘हमारे लगभग 30 वर्षों के अटूट साथ और एक-दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग के लिए कोई औपचारिकता नहीं चाहिए... हमारा संयोजन अटूट है और इसी में हमारी शक्ति है’,” CWC प्रस्ताव में कहा गया।

• Highlighting how **Patel had fought** against the **exploitative British policies**, the resolution went on to draw **parallels between the colonial rulers and the present-day BJP regime**.

प्रस्ताव में यह बताया गया कि पटेल ने किस तरह शोषणकारी ब्रिटिश नीतियों से लड़ाई लड़ी, और साथ ही औपनिवेशिक शासकों और आज के भाजपा शासन के बीच समानता भी दर्शाई गई।

• “The **BJP government of today** emulates the **cruel British policies against farmers** — be it bringing an ordinance to weaken the **Right to Fair Compensation Law**, the three **Anti-Agriculture Black Laws**, **digging up roads** to stop farmers, installing **spikes & wedges**, or the **Lakhimpur Kheri incident**, where farmers were **crushed under the Jeeps of BJP leaders**,” it read.

“आज की भाजपा सरकार किसानों के खिलाफ ब्रिटिश क्रूर नीतियों को अपनाती है — चाहे वह उचित मुआवज़ा कानून को कमजोर करने के लिए अध्यादेश लाना हो, तीन कृषि विरोधी काले कानून लाना हो, किसानों को रोकने के लिए सड़कें खोदना, कीलें और बैरिकेड लगाना, या फिर लखीमपुर खीरी की घटना, जहां किसानों को भाजपा नेताओं की जीप से कुचल दिया गया, यह सब दर्शाता है,” प्रस्ताव में कहा गया।

• Mr. **Kharge** said that attention was being **diverted from the basic issues** of the country by indulging in **communal division**.

श्री खड़गे ने कहा कि देश के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया जा रहा है।


• “At the same time, **oligarchic monopoly** is on the path of **controlling the government** by capturing the **resources of the country**,” he alleged.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



“साथ ही, कुछ पूंजीपतियों का एकाधिकार देश के संसाधनों को हथियाकर सरकार पर नियंत्रण करने की राह पर है,” उन्होंने आरोप लगाया।

• **Chidambaram faints:** Congress leader P. Chidambaram fell unconscious during a prayer meet here and was taken to hospital.

चिदंबरम बेहोश हो गए: कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम यहां एक प्रार्थना सभा के दौरान अचेत हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

• Sources said he probably fainted due to the heat after a hectic day.

सूत्रों के अनुसार वह थकान और गर्मी के कारण बेहोश हो गए थे।

• His son Karti later said on X that his father was fine and was being examined by doctors.

बाद में उनके बेटे कार्ति ने एक्स (X) पर बताया कि उनके पिता ठीक हैं और डॉक्टरों द्वारा जांच की जा रही है।

## Congress insulted Ambedkar, never gave Patel his due: BJP

GS Paper I:  
Ambedkar

NEW DELHI

Union Minister Arjun Ram Meghwal on Tuesday said that Congress leader Rahul Gandhi had insulted B.R. Ambedkar by asserting the Constitution of India was “a thousand years old”, and it was tantamount to undermining Ambedkar’s legacy. Mr. Gandhi had made the remark during a programme in Bihar on Monday.

“By saying this, Rahul Gandhi has undermined the actual framer of the Indian Constitution, Babasa-

heb Ambedkar,” Mr. Meghwal said. The Congress, he added, “has always belittled him [Ambedkar]”.

### ‘Appropriating legacy’

Mr. Meghwal also hit back at Congress president Mallikarjun Kharge for claiming that Sardar Vallabhbhai Patel’s ideology was opposed to that of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) as Mr. Kharge had accused the BJP of trying to appropriate Mr. Patel’s legacy.

“Congress has never given Sardar Patel his due. The Congress had no re-

gard for Patel as Nehru did not like him,” Mr. Meghwal said, citing a book by Sardar Patel’s daughter Maniben Patel to allege that Sardar Patel had been insulted by the Congress.

“Since the Congress is holding its convention in Gujarat, Mr. Kharge and his colleagues should have at least paid tributes at his statue in Kevadia if they have respect for him,” he added.

Mr. Meghwal said that Sardar Patel symbolised nationalist values, something that the RSS also believed in.

**Congress insulted Ambedkar, never gave Patel his due: BJP**

**कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया, पटेल को कभी उनका हक नहीं दिया: भाजपा**

**Union Minister Arjun Ram Meghwal on Tuesday said**

**that Congress leader Rahul Gandhi had insulted B.R. Ambedkar by asserting the Constitution of India was “a thousand years old”, and it was tantamount to undermining Ambedkar’s legacy.**

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह कहकर डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया कि भारतीय संविधान “हज़ारों साल पुराना” है, और यह अंबेडकर की विरासत को कमजोर करने जैसा है।

• Mr. Gandhi had made the remark during a **programme in Bihar on Monday**.  
सोमवार को बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान श्री गांधी ने यह टिप्पणी की थी।

• “By saying this, **Rahul Gandhi** has undermined the actual framer of the Indian Constitution, **Babasaheb Ambedkar**,” Mr. Meghwal said.

श्री मेघवाल ने कहा, “यह कहकर राहुल गांधी ने भारतीय संविधान के वास्तविक निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को कमजोर किया है।”

• The Congress, he added, “has always **belittled him [Ambedkar]**.”  
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा “अंबेडकर को कमतर आंका” है।

### ‘Appropriating legacy’

#### ‘विरासत को हड़पने की कोशिश’

• Mr. Meghwal also hit back at **Congress president Mallikarjun Kharge** for claiming that **Sardar Vallabhbhai Patel’s ideology** was opposed to that of the **Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)**, as Mr. Kharge had accused the BJP of trying to **appropriate Mr. Patel’s legacy**.

श्री मेघवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने यह दावा किया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से अलग थी, जबकि श्री खड़गे ने भाजपा पर पटेल की विरासत को हड़पने का आरोप लगाया था।

• “**Congress has never given Sardar Patel his due**. The Congress had no regard for Patel as **Nehru did not like him**,” Mr. Meghwal said.

श्री मेघवाल ने कहा, “कांग्रेस ने कभी सरदार पटेल को उनका उचित सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस को पटेल की परवाह नहीं थी क्योंकि नेहरू उन्हें पसंद नहीं करते थे।”

• He cited a book by **Sardar Patel’s daughter, Maniben Patel**, to allege that **Sardar Patel had been insulted by the Congress**.

उन्होंने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की एक पुस्तक का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सरदार पटेल का अपमान किया था।

• “Since the Congress is holding its **convention in Gujarat**, Mr. Kharge and his colleagues should have at least **paid tributes at his statue in Kevadia** if they have respect for him,” he added.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



उन्होंने कहा, “चूँकि कांग्रेस अपना अधिवेशन गुजरात में कर रही है, खड़े जी और उनके सहयोगियों को अगर पटेल के प्रति सम्मान है तो उन्हें कम से कम केवड़िया में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी।”

• Mr. Meghwal said that **Sardar Patel symbolised nationalist values**, something that the RSS also believed in.

श्री मेघवाल ने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीयतावादी मूल्यों के प्रतीक थे, और यही मूल्य आरएसएस भी मानता है।

## Statue of Unity in Kevadia, Gujarat

### केवड़िया, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

- The **Statue of Unity** is a monumental tribute to **Sardar Vallabhbhai Patel**, India's **first Deputy Prime Minister** and a key figure in the country's **independence movement**.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित एक विशाल स्मारक है, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे।

- Located in **Kevadia, Gujarat**, this statue stands as the **tallest in the world**, symbolizing Patel's **pivotal role in unifying India**.

यह प्रतिमा केवड़िया, गुजरात में स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा है, जो भारत को एकजुट करने में पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

### Key Features

#### मुख्य विशेषताएँ

- **Height and Structure:** The statue reaches a height of **182 meters (597 feet)**, surpassing other notable statues globally. Including its base, the total height is approximately **240 meters (787 feet)**.

**ऊँचाई और संरचना:** यह प्रतिमा **182 मीटर (597 फीट)** ऊँची है, जो दुनिया की अन्य प्रसिद्ध प्रतिमाओं से अधिक है। इसके आधार सहित कुल ऊँचाई लगभग **240 मीटर (787 फीट)** है।

- **Location:** Situated on the **Narmada River** in the **Kevadia colony**, the statue faces the **Sardar Sarovar Dam**, approximately **100 km southeast of Vadodara**.

**स्थान:** यह प्रतिमा केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और सरदार सरोवर डैम की ओर मुख किए हुए है, जो वडोदरा से लगभग **100 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व** में है।

- **Design and Materials:** **Designed by Indian sculptor Ram V. Sutar**, the statue comprises a **steel framework** reinforced with **concrete** and a **bronze cladding** exterior.

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



डिज़ाइन और सामग्री: इसे भारतीय मूर्तिकार **राम वी. सुतार** ने डिज़ाइन किया है। इसमें स्टील का ढांचा, कंक्रीट का समर्थन, और बाहरी कांस्य की परत है।

### Historical Background

#### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **Inception:** The project was announced in **2010** by **Narendra Modi**, then **Chief Minister of Gujarat**.  
आरंभ: इस परियोजना की घोषणा **2010** में **गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी** द्वारा की गई थी।
- **Construction Timeline:** Construction commenced on **October 31, 2013**, and concluded in **October 2018**, marking a **five-year development** period.  
निर्माण समयरेखा: निर्माण कार्य **31 अक्टूबर 2013** को शुरू हुआ और **अक्टूबर 2018** में समाप्त हुआ, जो **पाँच वर्षों की विकास अवधि** को दर्शाता है।
- **Inauguration:** The statue was officially unveiled on **October 31, 2018**, coinciding with **Sardar Patel's 143rd birth anniversary**.  
अनावरण: यह प्रतिमा **31 अक्टूबर 2018** को **सरदार पटेल की 143वीं जयंती** के अवसर पर आधिकारिक रूप से अनावृत की गई थी।



# Skymet forecasts 'normal' monsoon; 'La Nina weak'

**GS Paper I:  
Geography**

NEW DELHI

The private weather agency Skymet Weather has forecast a "normal" monsoon from June to September. The monsoon rainfall will be 3% more than the long-time average of 868.6 mm (with an error margin of 5%) during the period. Rainfall in the window of 4% of the long-time average is considered "normal".

"La Nina (a half-degree or more cooling of the Central Equatorial Pacific) this season was weak and brief. The vital signs of La Nina have started fading now. The occurrence of El Nino (a half-degree heating in the same region) which normally corrupts the monsoon is ruled out," Jatin Singh, managing director, Skymet, said in a statement. "The second half of



Rainfall will be 3% more than the long-time average of 868.6 mm, Skymet says. THE HINDU

the season is expected to be better than the first half." A La Nina is usually linked to increased monsoon rainfall and El Nino, the opposite.

Skymet said that it anticipated "sufficiently good rains" over western and South India. The core monsoon rain-fed zone of Maharashtra and Madhya Pradesh would receive

"adequate" rainfall. Excess rainfall was likely all along the Western Ghats, more so, over Kerala, coastal Karnataka and Goa. The northeast region and the hilly states of North India are likely to receive less than normal rainfall.

The rainfall during June, the first monsoon month, was likely to be 4% below normal. July and August, the rainiest of the monsoon months, will likely receive 2% and 8% more rainfall, respectively. September will receive 4% more rainfall, the agency has forecast.

The India Meteorological Department is expected to announce its forecast next week. It will give a more detailed breakdown of the forecast, on how the monsoon will pan out regionally, in mid-May.

Last year, India ended up with 8% more rainfall.

**Skymet forecasts 'normal' monsoon; 'La Nina' weak**

**स्काइमेट ने 'सामान्य' मानसून की भविष्यवाणी की; 'ला नीना' कमजोर**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



The private weather agency Skymet Weather has forecast a “normal” monsoon from June to September.

निजी मौसम एजेंसी स्काइमेट वेदर ने जून से सितंबर तक "सामान्य" मानसून की भविष्यवाणी की है।

• The monsoon rainfall will be 3% more than the long-time average of 868.6 mm (with an error margin of 5%) during the period.

इस अवधि में मानसून वर्षा 868.6 मिमी के दीर्घकालिक औसत से 3% अधिक होगी (5% की त्रुटि सीमा के साथ)।

• Rainfall in the window of 4% of the long-time average is considered “normal”.

दीर्घकालिक औसत के 4% के भीतर की वर्षा को "सामान्य" माना जाता है।

• “La Nina (a half-degree or more cooling of the Central Equatorial Pacific) this season was weak and brief.

इस सीजन में ला नीना (मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का आधा डिग्री या अधिक ठंडा होना) कमजोर और अल्पकालिक था।

• The vital signs of La Nina have started fading now.

ला नीना के मुख्य संकेत अब मिटने लगे हैं।

• The occurrence of El Nino (a half-degree heating in the same region) which normally corrupts the monsoon is ruled out,” Jatin Singh, managing director, Skymet, said in a statement.

एल नीनो (उसी क्षेत्र में आधा डिग्री तापमान में वृद्धि), जो सामान्यतः मानसून को प्रभावित करता है, उसकी संभावना को नकारा गया है, स्काइमेट के प्रबंध निदेशक जतिन सिंह ने एक बयान में कहा।

• “The second half of the season is expected to be better than the first half.”

इस सीजन का दूसरा भाग पहले भाग से बेहतर होने की संभावना है।

• A La Nina is usually linked to increased monsoon rainfall and El Nino, the opposite.

ला नीना सामान्यतः अधिक मानसून वर्षा से जुड़ा होता है और एल नीनो इसका विपरीत प्रभाव डालता है।

• Skymet said that it anticipated “sufficiently good rains” over western and South India.

स्काइमेट ने कहा कि उसे पश्चिमी और दक्षिण भारत में "पर्याप्त अच्छी बारिश" की उम्मीद है।

• The core monsoon rain-fed zone of Maharashtra and Madhya Pradesh would receive “adequate” rainfall.

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्य मानसूनी वर्षा क्षेत्र में "पर्याप्त" वर्षा होगी।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)

Contact Number : 9971932488

Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• **Excess rainfall** was likely all along the **Western Ghats**, more so, over **Kerala, coastal Karnataka and Goa**.

पश्चिमी घाट, विशेष रूप से केरल, तटीय कर्नाटक और गोवा में अधिक वर्षा की संभावना है।

• The **northeast region** and the **hilly states of North India** are likely to receive **less than normal rainfall**.

पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है।

• The rainfall during **June**, the first monsoon month, was likely to be **4% below normal**.

जून, जो मानसून का पहला महीना है, में वर्षा सामान्य से 4% कम रहने की संभावना है।

• **July and August**, the rainiest of the monsoon months, will likely receive **2% and 8% more rainfall**, respectively.

जुलाई और अगस्त, जो मानसून के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने हैं, में क्रमशः 2% और 8% अधिक वर्षा हो सकती है।

• **September** will receive **4% more rainfall**, the agency has forecast.

एजेंसी ने पूर्वानुमान लगाया है कि सितंबर में 4% अधिक वर्षा होगी।

• The **India Meteorological Department** is expected to announce its **forecast next week**.

भारतीय मौसम विभाग के द्वारा अगले सप्ताह अपना पूर्वानुमान जारी किए जाने की उम्मीद है।

• It will give a more detailed breakdown of the forecast, on how the monsoon will pan out **regionally**, in **mid-May**.

मई के मध्य में यह पूर्वानुमान के क्षेत्रीय विभाजन का विस्तृत विवरण देगा कि मानसून क्षेत्रवार कैसा रहेगा।

• **Last year**, India ended up with **8% more rainfall**.

पिछले वर्ष, भारत में 8% अधिक वर्षा हुई थी।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



**TOPICS COVERED GS Paper II: Polity, Governance, and International Relations)**

**1. SC slams T.N. Governor, fixes time for assent**

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल की आलोचना की, विधेयकों पर सहमति के लिए समय सीमा तय की

**2. Ruling on T.N. applies to its ongoing case, Kerala tells SC**

तमिलनाडु पर आए फैसले को अपनी चल रही याचिका पर लागू बताया, केरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

**3. M.P. court sends 'fake' cardiologist linked to 7 deaths to police custody**

7 मौतों से जुड़े 'फर्जी' हृदय रोग विशेषज्ञ को एम.पी. कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा

**4. Court orders Medha Patkar's release in defamation case**

मानहानि मामले में मेधा पाटकर की रिहाई का आदेश कोर्ट ने दिया

**5. Governor cannot change his mind second time: SC**

राज्यपाल दोबारा अपना मन नहीं बदल सकते: सुप्रीम कोर्ट

**6. Modi says 52-cr. loans given under MUDRA**

मोदी ने कहा मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ ऋण दिए गए

**7. A regional revival**

एक क्षेत्रीय पुनर्जीवन

**8. The gradual transformation of the Home Ministry**

गृह मंत्रालय का धीरे-धीरे रूपांतरण

**9. Current Political Situation in South Korea**

दक्षिण कोरिया में वर्तमान राजनीतिक स्थिति



# SC slams T.N. Governor, fixes time for assent

**Court slams R.N. Ravi's inaction on 10 re-passed Bills, deems them to have received assent**

**GS Paper II: Article 200**

**Krishnadas Rajagopal**  
NEW DELHI

The Supreme Court on Tuesday slammed Tamil Nadu Governor R.N. Ravi's conduct as "unconstitutional", criticising his prolonged inaction on 10 key Bills. The court noted that he failed to act for months before swiftly referring the Bills to the President, only after they were re-passed by the State Legislature and came under judicial scrutiny.

The top court deemed the 10 Bills to have received assent, declaring the actions of President Droupadi Murmu – who assented to only one of the Bills, rejecting seven, and not considering two others – to be void. It also fixed time limits, of one to three

months, for Governors to take action on future Bills.

The court said that a Governor must be a "friend, guide and philosopher" to the State, not a hindrance. "A Governor is envisaged as a sagacious counsellor... What unfolded in the current litigation was quite the opposite," a Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan observed.

Justice Pardiwala, who authored the judgment, said that Mr. Ravi had acted as a "roadblock" by delaying action on the Bills sent to him for consent by the Assembly under Article 200 of the Constitution.

The Article gives a Governor three choices: to assent, withhold assent, or reserve the Bills for consideration by the President. A Governor cannot indefinitely delay exercising his

## On the clock

SC sets time frame for Governors, saying the phrase 'as soon as possible' permeates Article 200 with a sense of expediency

■ A Governor has a maximum of **one month** to withhold assent on the aid and advice of the State Cabinet.

■ A maximum of **three months** is given to return the Bill with a message specifying reasons if the Governor withholds assent contrary to the Cabinet's advice

■ The Governor has **three months** to reserve a Bill for the President's consideration against the advice of the Cabinet.

■ The Governor 'must' grant assent to a Bill re-passed by the State Legislature under Article 200 within a **maximum of one month**



or her choice, the court said. "Once a Bill is presented to the Governor, he is under a Constitutional obligation to opt for one of the three choices... The phrase 'as soon as possible' permeates Article 200 with a sense of expediency

and does not allow Governors to sit on Bills and exercise pocket veto over them," Justice Pardiwala explained.

The court said that Governors must look within themselves and reflect whether their actions were

in line with the Constitutional ethos and aspirations of the people. Delaying assent indefinitely on Bills passed by the State Legislature reduced these proposed laws, Justice Pardiwala observed.

## Time limits

In a significant move, the court fixed time limits of one to three months, variously, for Governors to take a call on Bills.

A Governor has a maximum of one month to withhold assent on the aid and advice of the State Cabinet, the court said. If he withholds assent contrary to the Cabinet's advice, he has a maximum of three months to return the Bill with a message specifying his reasons. The Governor has three months to reserve a Bill for the Presi-

dent's consideration against the advice of the State Cabinet. The Governor "must" grant assent to a Bill re-passed by the State Legislature under Article 200 within a maximum of one month.

Justice Pardiwala said that Governors should be put on the clock, as the Constitutional significance of Article 200 and federal polity required that their conduct answer to "determinable judicial standards." Any failure by a Governor to comply with the timelines would invite judicial review, the court warned.

Senior advocates A.M. Singhvi, Rakesh Dwivedi, P. Wilson and advocate Sa-barish Subramanian appeared for the State of Tamil Nadu. The Attorney General of India R. Venkat-

aramani appeared for the Governor's office in the case.

The judgment said Mr. Ravi had flouted the first proviso of Article 200, which required Governors to communicate with the Assembly 'as soon as possible' their reasons for refusing consent to Bills.

Justice Pardiwala emphasised that Governors have no such "absolute or pocket veto". "Governors cannot withhold assent simpliciter [in a summary manner]," the court declared. Besides, a Governor cannot exercise his personal discretion if a House passed the same Bill again and returned it to him for consent, the court pronounced.

**RELATED REPORTS ON**  
» PAGES

## SC slams T.N. Governor, fixes time for assent

**सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल की आलोचना की, विधेयकों पर सहमति के लिए समय सीमा तय की**

**The Supreme Court on Tuesday slammed Tamil Nadu Governor R.N. Ravi's conduct as "unconstitutional", criticising his prolonged inaction on 10 key Bills.**

• सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के आचरण को "असंवैधानिक" बताते हुए 10 महत्वपूर्ण विधेयकों पर उनकी लंबे समय तक की गई निष्क्रियता की आलोचना की।

• The court noted that he failed to act for months before swiftly referring the Bills to the President, only after they were re-passed by the State Legislature and came under judicial scrutiny.

• कोर्ट ने देखा कि उन्होंने महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, और जब विधेयकों को राज्य विधानसभा द्वारा फिर से पारित किया गया और वे न्यायिक समीक्षा में आए, तभी उन्होंने उन्हें तेजी से राष्ट्रपति को भेज दिया।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The top court deemed the **10 Bills** to have received **assent**, declaring the actions of **President Droupadi Murmu** — who **assented to only one, rejected seven, and did not consider two** — to be **void**.
  - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **10 विधेयकों को सहमति मिल गई है**, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई कार्रवाई — जिन्होंने केवल एक को मंजूरी दी, सात को खारिज किया, और दो पर विचार नहीं किया — को **अमान्य घोषित कर दिया**।
- It also fixed **time limits of one to three months** for Governors to take action on future Bills.
  - कोर्ट ने भविष्य में विधेयकों पर कार्रवाई के लिए राज्यपालों के लिए **एक से तीन महीने की समय सीमा** भी तय की।
- The court said that a **Governor must be a “friend, guide and philosopher” to the State, not a hindrance**.
  - अदालत ने कहा कि एक **राज्यपाल को राज्य का “मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक” होना चाहिए, न कि बाधा**।
- “A Governor is envisaged as a **sagacious counsellor**... What unfolded in the current litigation was quite the opposite,” a **Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan** observed.
  - “राज्यपाल को एक **विवेकपूर्ण सलाहकार** के रूप में देखा जाता है... लेकिन इस मुकदमे में जो कुछ सामने आया, वह इसके ठीक विपरीत था,” **न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन** की पीठ ने टिप्पणी की।
- Justice **Pardiwala**, who authored the judgment, said that **Mr. Ravi** had acted as a **“roadblock”** by delaying action on the Bills sent to him for consent by the Assembly under **Article 200 of the Constitution**.
  - निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति **पारदीवाला** ने कहा कि **श्री रवि** ने संविधान के **अनुच्छेद 200** के तहत विधानसभा द्वारा भेजे गए विधेयकों पर सहमति देने में देरी कर एक **“रुकावट”** की तरह काम किया।
- **Article 200 gives a Governor three choices: to assent, withhold assent, or reserve the Bills for the President**.
  - **अनुच्छेद 200** राज्यपाल को **तीन विकल्प देता है: सहमति देना, सहमति रोकना, या विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना**।
- A Governor cannot **indefinitely delay** exercising his or her choice, the court said.
  - कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल अपने विकल्प को **अनिश्चितकाल तक टाल नहीं सकते**।
- “Once a Bill is presented to the Governor, he is under a **Constitutional obligation** to opt for one of the three choices... The phrase **‘as soon as possible’ permeates Article 200 with a sense of expediency**,” Justice Pardiwala explained.
  - “एक बार विधेयक राज्यपाल के पास प्रस्तुत हो जाने के बाद, वह **संवैधानिक रूप से बाध्य** होता है कि वह तीन विकल्पों में से किसी एक को चुने... **‘यथाशीघ्र’** शब्द अनुच्छेद 200 में **त्वरितता का भाव दर्शाता है**,” न्यायमूर्ति पारदीवाला ने स्पष्ट किया।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The court said that Governors must look within themselves and **reflect** whether their actions were in line with the **Constitutional ethos and aspirations of the people**.
- कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या उनके कार्य **संवैधानिक मूल्यों और जन आकांक्षाओं** के अनुरूप हैं।

- Delaying assent **indefinitely** on Bills passed by the State Legislature **reduced** these proposed laws, Justice Pardiwala observed.
- राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर **अनिश्चितकाल तक सहमति में देरी** करने से इन प्रस्तावित कानूनों की **महत्ता कम हो जाती है**, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा।

## Time limits

### समय सीमा

- **In a significant move, the court fixed time limits of one to three months**, variously, for Governors to take a call on Bills.
  - एक **महत्वपूर्ण कदम** उठाते हुए, अदालत ने राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए **एक से तीन महीने** की समय सीमा तय की।
- **A Governor has a maximum of one month to withhold assent on the aid and advice of the State Cabinet**, the court said.
  - कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को **राज्य कैबिनेट की सलाह पर सहमति रोकने** के लिए **अधिकतम एक महीने** का समय मिलेगा।
- **If he withholds assent contrary to the Cabinet's advice, he has a maximum of three months to return the Bill with a message specifying his reasons**.
  - यदि वह **कैबिनेट की सलाह के विरुद्ध सहमति रोकते हैं**, तो उन्हें **अधिकतम तीन महीने** में अपने कारणों सहित एक संदेश के साथ विधेयक वापस भेजना होगा।
- **The Governor has three months to reserve a Bill for the President's consideration against the advice of the State Cabinet**.
  - राज्यपाल को **राज्य कैबिनेट की सलाह के विपरीत राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने** के लिए **तीन महीने** का समय मिलेगा।
- **The Governor must grant assent to a Bill re-passed by the State Legislature under Article 200 within a maximum of one month**.
  - राज्यपाल को **अनुच्छेद 200** के तहत राज्य विधानसभा द्वारा फिर से पारित किए गए विधेयक को **अधिकतम एक महीने** में अनिवार्य रूप से मंजूरी देनी होगी।
- Justice Pardiwala said that **Governors should be put on the clock, as the Constitutional significance of Article 200 and federal polity required that their conduct answer to determinable judicial standards**.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि राज्यपालों को **समय-सीमा में बांधना** चाहिए, क्योंकि **अनुच्छेद 200** की संवैधानिक महत्ता और संघीय शासन प्रणाली यह मांग करती है कि उनका आचरण निर्धारित न्यायिक मानकों के अनुरूप हो।

• Any **failure** by a Governor to comply with the timelines would invite **judicial review**, the court warned.

• कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई राज्यपाल इन **समय सीमाओं का पालन नहीं करता**, तो वह **न्यायिक समीक्षा** के लिए उत्तरदायी होगा।

• Senior advocates **A.M. Singhvi, Rakesh Dwivedi, P. Wilson** and advocate **Sabarish Subramanian** appeared for the **State of Tamil Nadu**.

• **सीनियर अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी, राकेश द्विवेदी, पी. विल्सन और सबरिश सुब्रमण्यम** ने तमिलनाडु राज्य की ओर से पक्ष रखा।

• The **Attorney General of India R. Venkataramani** appeared for the **Governor's office** in the case.

• **भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि** ने इस मामले में **राज्यपाल कार्यालय** की ओर से पेशी की।

• The judgment said **Mr. Ravi** had **flouted the first proviso of Article 200**, which required Governors to **communicate with the Assembly 'as soon as possible'** their reasons for refusing consent to Bills.

• फैसले में कहा गया कि **श्री रवि** ने **अनुच्छेद 200** की पहली व्याख्या का **उल्लंघन** किया, जिसमें राज्यपालों को विधेयकों पर सहमति न देने के कारणों को विधानसभा को **'यथाशीघ्र' बताना** आवश्यक है।

• Justice Pardiwala emphasised that **Governors have no such "absolute or pocket veto"**.

• न्यायमूर्ति पारदीवाला ने ज़ोर देकर कहा कि राज्यपालों के पास ऐसा कोई **"पूर्ण या पॉकेट वीटो"** नहीं है।

• "Governors cannot withhold assent **simpliciter** [in a summary manner]," the court declared.

• अदालत ने कहा, "राज्यपाल **सरल रूप में** (बिना कारण) सहमति नहीं रोक सकते।"

• **Besides, a Governor cannot exercise his personal discretion if a House passed the same Bill again and returned it to him for consent**, the court pronounced.

• इसके अलावा, यदि विधानसभा किसी विधेयक को दोबारा पारित कर राज्यपाल को सहमति के लिए भेजती है, तो वह अपनी **व्यक्तिगत विवेकाधिकार** का उपयोग नहीं कर सकता, अदालत ने यह निर्णय दिया।



## The State of Tamil Nadu v Governor of Tamil Nadu

### तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल

- The Court declared **Governor R.N. Ravi's delay** in granting assent to **10 bills** as **erroneous and illegal**.  
न्यायालय ने राज्यपाल आर. एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को त्रुटिपूर्ण और अवैध घोषित किया।
- It exercised its **inherent powers under Article 142** to grant **assent to the pending bills**.  
न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लंबित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की।

### Key Constitutional Questions Raised

#### उठाए गए प्रमुख संवैधानिक प्रश्न

Can Bills submitted to the Governor under Article 200 be kept pending without response for an indefinite period of time?

क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को भेजे गए विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखा जा सकता है?

- The Court held that **keeping bills pending indefinitely** is **not constitutionally permissible** and goes against the **principle of responsible government**.  
न्यायालय ने माना कि विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखना संविधान सम्मत नहीं है और यह उत्तरदायी शासन के सिद्धांत के विरुद्ध है।

Under Article 200, is the Governor obligated to resend a Bill to the Legislative Assembly with reasoning or can they simply say that they are withholding assent?

क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को कारण सहित विधेयक को विधानसभा को पुनः भेजना आवश्यक है या वे केवल यह कह सकते हैं कि वे मंजूरी रोक रहे हैं?

- The Governor **cannot simply withhold assent** without **providing reasons**. If they **return the bill**, they must **explain their concerns** to the Legislative Assembly.  
राज्यपाल केवल मंजूरी रोकने की बात कारण बताए बिना नहीं कह सकते। यदि वे विधेयक लौटाते हैं, तो उन्हें विधानसभा को अपने आपत्तियाँ स्पष्ट रूप से बतानी होंगी।



**When can the Governor send a re-passed Bill, which he has previously withheld assent from, to the President for assent?**

राज्यपाल कब उस पुनः पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज सकते हैं, जिसे उन्होंने पहले मंजूरी देने से रोका था?

- Once the **Legislative Assembly re-passes the bill**, the Governor must **either give assent or send it to the President**. They **cannot withhold it again** without action.  
जब विधानसभा उस विधेयक को पुनः पारित कर देती है, तब राज्यपाल को या तो मंजूरी देनी होती है या राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। वे इसे फिर से बिना कार्यवाही के रोक नहीं सकते।

**Has there been a delay in the discharge or exercising of constitutional functions in Tamil Nadu?**

क्या तमिलनाडु में संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन या प्रयोग में देरी हुई है?

- Yes, the Court observed a **clear delay** in the Governor's **performance of constitutional duties**, which impacted the **legislative functioning** of the state.  
हां, न्यायालय ने यह देखा कि राज्यपाल द्वारा **संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में स्पष्ट देरी हुई**, जिससे राज्य के **विधायी कार्य** प्रभावित हुए।



# Ruling on T.N. applies to its ongoing case, Kerala tells SC

**GS Paper II: Article 168**

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

Emboldened by the Supreme Court's judgment criticising the Tamil Nadu Governor for delaying action on 10 Bills, neighbouring Kerala told Chief Justice of India Sanjiv Khanna that the ruling should equally apply to its own Governor.

Kerala's case came up for hearing a few minutes after a Bench led by Justice J.B. Pardiwala delivered the judgment in the Tamil Nadu case.

Appearing for Kerala, senior advocate K.K. Venugopal urged the CJI, who expressed reluctance to hear the case on Tuesday, to list the case before Justice Pardiwala's Bench.

The CJI, who is set to retire on May 13, listed the case for mid-May without committing to the request.

The petition by Kerala

**The CJI, who is set to retire on May 13, listed it for mid-May without committing to the request**

blamed **Governors in Opposition-ruled States triggering an "endemic" of delaying assent or indefinitely sitting on crucial Bills passed by the Legislative Assemblies.**

In a hearing on November 20, 2023, Mr. Venugopal had said eight key Bills were pending for eight to 23 months. The State had argued that the Governor was a part of the State Legislature under Article 168 and could not act in a way contrary to the wishes of the elected representatives of the people.

**Article 168 spells out that "for every State, there shall be a Legislature**

**which shall consist of the Governor and two Houses to be known respectively as the Legislative Council and the Legislative Assembly".**

The Supreme Court had at the time issued notice to seven Governors in that hearing.

In the next hearing, on November 29, 2023, it had not escaped the attention of the court that some of the Bills had since been dealt with by the Governor. The then Governor Arif Mohammad Khan had assented to one Bill and referred the remaining seven to the President for consideration.

Mr. Venugopal had however demanded in court that the Governor explain if the seven Bills referred to the President had violated Article 254 (inconsistency between Central and State laws) of the Constitution.

**equally apply to its own Governor.**

तमिलनाडु के राज्यपाल की 10 विधेयकों पर देरी के लिए की गई सुप्रीम कोर्ट की आलोचना से प्रेरित होकर, पड़ोसी केरल ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से कहा कि यह फैसला उसके राज्यपाल पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए।

• **Kerala's case** came up for hearing a few minutes after a Bench led by **Justice J.B. Pardiwala** delivered the judgment in the Tamil Nadu case.

तमिलनाडु मामले में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा फैसला सुनाने के कुछ ही मिनटों बाद, केरल का मामला सुनवाई के लिए आया।

**Ruling on T.N. applies to its ongoing case, Kerala tells SC**

तमिलनाडु पर आए फैसले को अपनी चल रही याचिका पर लागू बताया, केरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

**Emboldened by the Supreme Court's judgment criticising the Tamil Nadu Governor for delaying action on 10 Bills, neighbouring Kerala told Chief Justice of India Sanjiv Khanna that the ruling should**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• Appearing for Kerala, **senior advocate K.K. Venugopal** urged the **CJI**, who expressed reluctance to hear the case on **Tuesday**, to list the case before **Justice Pardiwala's Bench**.

केरल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया, जिन्होंने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई से हिचक जताई, कि इसे न्यायमूर्ति पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

• The **CJI**, who is set to retire on **May 13**, listed the case for **mid-May** without committing to the request.

मुख्य न्यायाधीश, जो 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ने इस मामले को मई के मध्य के लिए सूचीबद्ध किया, लेकिन अनुरोध पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई।

• The petition by **Kerala** blamed **Governors** in **Opposition-ruled States** for triggering an “**endemic**” of **delaying assent** or **indefinitely sitting on crucial Bills** passed by the Legislative Assemblies.

केरल की याचिका में विपक्ष-शासित राज्यों के राज्यपालों पर आरोप लगाया गया कि वे विधानसभाओं द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों पर सहमति देने में देरी या अनिश्चितकाल तक बैठने की “महामारी” फैला रहे हैं।

• In a hearing on **November 20, 2023**, Mr. Venugopal had said **eight key Bills** were pending for **eight to 23 months**.

20 नवंबर 2023 की सुनवाई में श्री वेणुगोपाल ने कहा था कि आठ महत्वपूर्ण विधेयक 8 से 23 महीनों से लंबित हैं।

• The State had argued that the **Governor** was a part of the **State Legislature** under **Article 168** and could not act in a way contrary to the wishes of the **elected representatives** of the people.

राज्य ने तर्क दिया कि राज्यपाल, अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानसभा का हिस्सा होते हैं और वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की इच्छाओं के विपरीत कार्य नहीं कर सकते।

• **Article 168** spells out that “for every State, there shall be a Legislature which shall consist of the **Governor** and two Houses to be known respectively as the **Legislative Council** and the **Legislative Assembly**”.

अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि “हर राज्य में एक विधानसभा होगी जिसमें राज्यपाल और दो सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः विधायी परिषद और विधान सभा कहा जाएगा।”

• The **Supreme Court** had at the time issued **notice** to **seven Governors** in that hearing.

सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की सुनवाई में सात राज्यपालों को नोटिस जारी किया था।

• In the next hearing, on **November 29, 2023**, it had not escaped the attention of the court that some of the Bills had since been dealt with by the **Governor**.

29 नवंबर 2023 की अगली सुनवाई में अदालत ने यह देखा कि कुछ विधेयकों को राज्यपाल ने उस दौरान निपटा दिया था।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• The then Governor **Arif Mohammad Khan** had assented to **one Bill** and referred the remaining **seven** to the **President** for consideration.

तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक विधेयक को स्वीकृति दी थी और बाकी सात विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया था।

• Mr. Venugopal had however demanded in court that the **Governor** explain if the **seven Bills** referred to the President had violated **Article 254** (*inconsistency between Central and State laws*) of the Constitution.

हालांकि, श्री वेणुगोपाल ने अदालत में यह मांग की थी कि राज्यपाल यह स्पष्ट करें कि राष्ट्रपति के पास भेजे गए सात विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 254 (जो केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच असंगति से संबंधित है) का उल्लंघन करते हैं या नहीं।

## M.P. court sends 'fake' cardiologist linked to 7 deaths to police custody

GS Paper II:  
Statutory Bodies

BHOPAL

A court in Madhya Pradesh's Damoh district on Tuesday sent alleged impostor Narendra John Camm, linked to the death of seven patients, to five days of police remand.

Mr. Camm is accused of posing as a doctor at Damoh's Mission Hospital and performing crucial surgeries like angioplasty and angiography, and causing at least seven deaths. An FIR was filed against him on Sunday night based on a report by a probe committee, which had been constituted by Damoh Collector Sudhir Kochhar after the first complaint received against him in February.

Speaking to *The Hindu*,

**Police file cheating case against another bogus doctor, who had served as BJP medical cell co-convener**

Damoh Additional Superintendent of Police Sandeep Mishra said the investigating team is currently interrogating the accused in detail and trying to verify his alleged involvement in the complaints received so far.

Around 1.45 a.m. on Tuesday, a team arrived in Damoh after arresting the accused from Prayagraj in Uttar Pradesh following which he was presented before the district court.

Damoh SP (City) Abhishhek Tiwari said a team led by

Chief Medical and Health Officer (CMHO) Dr. Mukesh Kumar Jain is contacting the hospital management and staff, and the patients allegedly treated by him.

"While the police are currently focusing on the use of forged documents and if he actually stole a doctor's identity, we will also contact the universities and institutes concerned to get more details on his claims," he said. According to the FIR, during preliminary investigation, his documents were found to be "forged" and details like registration numbers "missing" from them.

A **National Human Rights Commission** team, which has been camping in Damoh since Monday, said it is probing multiple as-

pects involving alleged malpractices at the hospital.

Meanwhile, police have registered a cheating case against another alleged bogus doctor, who had also served as BJP Jabalpur medical cell's co-convener, after a complaint that he worked in a government hospital on a fake degree. The case against Shubham Awasthi was registered on April 5.

"An FIR of cheating has been registered against Shubham Awasthi, who has been accused of using a fake Ayush degree and working in government-run Seth Govind Das District Hospital, Jabalpur. The case was filed on the basis of a court order," Inspector Nehru Singh Khandate said.

(With inputs from PTI)

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur  
Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)  
Contact Number : 9971932488  
Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



## M.P. court sends 'fake' cardiologist linked to 7 deaths to police custody

7 मौतों से जुड़े 'फर्जी' हृदय रोग विशेषज्ञ को एम.पी. कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा

A court in Madhya Pradesh's Damoh district on Tuesday sent alleged impostor Narendra John Camm, linked to the death of seven patients, to five days of police remand.

मध्य प्रदेश के दमोह जिले की एक अदालत ने मंगलवार को सात मरीजों की मौत से जुड़े कथित फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम को पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेजा।

• Mr. Camm is accused of posing as a doctor at **Damoh's Mission Hospital** and performing crucial surgeries like **angioplasty and angiography**, and causing at least **seven deaths**.

नरेंद्र कैम पर आरोप है कि वह दमोह के मिशन अस्पताल में डॉक्टर बनकर एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जैसी महत्वपूर्ण सर्जरी कर रहा था और उसने कम से कम सात लोगों की जान ले ली।

• An **FIR** was filed against him on **Sunday night** based on a report by a **probe committee**, which had been constituted by **Damoh Collector Sudhir Kochhar** after the first complaint received against him in **February**.

उसके खिलाफ रविवार रात को एफआईआर दर्ज की गई, जो दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर द्वारा फरवरी में मिली पहली शिकायत के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी।

• Speaking to *The Hindu*, **Damoh Additional Superintendent of Police Sandeep Mishra** said the investigating team is currently interrogating the accused in detail and trying to verify his alleged involvement in the complaints received so far.

द हिंदू से बात करते हुए, दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने कहा कि जांच टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और अब तक मिली शिकायतों में उसकी कथित भूमिका की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है।

• Around **1.45 a.m. on Tuesday**, a team arrived in Damoh after arresting the accused from **Prayagraj in Uttar Pradesh**, following which he was presented before the **district court**.

मंगलवार तड़के 1.45 बजे, एक टीम ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर दमोह लाया, जिसके बाद उसे जिला अदालत में पेश किया गया।

• **Damoh SP (City) Abhishek Tiwari** said a team led by **Chief Medical and Health Officer (CMHO) Dr. Mukesh Kumar Jain** is contacting the **hospital management and staff**, and the patients allegedly treated by him.

दमोह शहर के एसपी अभिषेक तिवारी ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार जैन की अगुवाई में एक टीम अस्पताल प्रबंधन, स्टाफ और उसके द्वारा इलाज किए गए मरीजों से संपर्क कर रही है।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• “While the police are currently focusing on the use of **forged documents** and if he actually **stole a doctor’s identity**, we will also contact the **universities and institutes** concerned to get more details on his claims,” he said.

उन्होंने कहा, "पुलिस फिलहाल उसके **जाली दस्तावेजों** के इस्तेमाल और **किसी डॉक्टर की पहचान चुराने** की जांच कर रही है। हम संबंधित **विश्वविद्यालयों और संस्थानों** से भी संपर्क करेंगे ताकि उसके दावों की अधिक जानकारी मिल सके।"

• According to the **FIR**, during preliminary investigation, his **documents were found to be “forged”** and details like **registration numbers were “missing”** from them.

एफआईआर के अनुसार, प्रारंभिक जांच में उसके दस्तावेज **“फर्जी”** पाए गए और उनमें **रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारी** “गायब” थीं।

• A **National Human Rights Commission** team, which has been camping in Damoh since **Monday**, said it is probing **multiple aspects** involving alleged **malpractices at the hospital**.

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** की एक टीम, जो **सोमवार से दमोह** में मौजूद है, ने कहा कि वह अस्पताल में कथित **गड़बड़ियों के कई पहलुओं** की जांच कर रही है।

• Meanwhile, police have registered a **cheating case** against another **alleged bogus doctor**, who had also served as **BJP Jabalpur medical cell’s co-convener**, after a complaint that he worked in a **government hospital** on a **fake degree**.

इस बीच, पुलिस ने एक अन्य कथित **फर्जी डॉक्टर** के खिलाफ **धोखाधड़ी का मामला** दर्ज किया है, जो **भाजपा जबलपुर मेडिकल सेल** के सह-संयोजक भी रह चुका है। उस पर **नकली डिग्री** के आधार पर **सरकारी अस्पताल** में काम करने का आरोप है।

• The case against **Shubham Awasthi** was registered on **April 5**.

**शुभम अवस्थी** के खिलाफ मामला **5 अप्रैल** को दर्ज किया गया था।

• “An **FIR of cheating** has been registered against Shubham Awasthi, who has been accused of using a **fake Ayush degree** and working in **government-run Seth Govind Das District Hospital, Jabalpur**. The case was filed on the basis of a **court order**,” Inspector **Nehru Singh Khandate** said.

**निरीक्षक नेहरू सिंह खंडाते** ने कहा, "शुभम अवस्थी के खिलाफ **धोखाधड़ी की एफआईआर** दर्ज की गई है। उस पर **नकली आयुष डिग्री** के आधार पर **सरकारी संचालित सेठ गोविंद दास जिला अस्पताल, जबलपुर** में काम करने का आरोप है। यह मामला **अदालत के आदेश** के आधार पर दर्ज किया गया।"



# Court orders Medha's Patkar's release in defamation case

**GS Paper II**

**The Hindu Bureau**

NEW DELHI

Providing respite to 70-year-old Narmada Bachao Andolan leader Medha Patkar, a Delhi court on Tuesday ordered her release on one-year probation in a 24-year-old criminal defamation case filed against her by Delhi Lieutenant-Governor V.K. Saxena.

She was convicted in the case last year and sentenced to five months in jail, and the conviction was upheld earlier this month.

## No previous conviction

Considering Ms. Patkar's age in reducing her sentence, the Additional Sessions Judge Vishal Singh of the Saket Courts stated that she is a person of social standing, and had no previous conviction.

"Ms. Medha Patkar, being herself a person of repute, must know the value



Medha Patkar

of one's reputation and how the defamation can result in loss of face and public esteem of the victim," the court noted.

However, it observed that punishment must be commensurate with the gravity of the offence. In the present case, the offence does not warrant a sentence of imprisonment, the court said.

It also reduced the fine of ₹10 lakh imposed on her to ₹1 lakh.

## Court orders Medha Patkar's release in defamation case

मानहानि मामले में मेधा पाटकर की रिहाई का आदेश कोर्ट ने दिया

Providing respite to 70-year-old Narmada Bachao Andolan leader Medha Patkar, a Delhi court on Tuesday ordered her release on one-year probation in a 24-year-old criminal defamation case filed against her by Delhi Lieutenant-Governor V.K. Saxena.

70 वर्षीय नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को राहत देते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 24 साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें एक साल की प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया, यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा दायर किया गया था।

• She was convicted in the case last year and sentenced to five months in jail, and the conviction was upheld earlier this month.

उन्हें इस मामले में पिछले साल दोषी ठहराया गया और पांच महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, और इस महीने की शुरुआत

में सजा को बरकरार रखा गया।

• Considering Ms. Patkar's age in reducing her sentence, the Additional Sessions Judge Vishal Singh of the Saket Courts stated that she is a person of social standing, and had no previous conviction.

उनकी सजा को कम करते हुए, साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने कहा कि पाटकर की उम्र को ध्यान में रखते हुए, वह सामाजिक प्रतिष्ठा वाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ पहले कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• “Ms. Medha Patkar, being herself a person of **repute**, must know the value of one’s **reputation** and how **defamation** can result in **loss of face and public esteem** of the victim,” the court noted.

अदालत ने कहा, "मेधा पाटकर खुद **प्रतिष्ठित** व्यक्ति होने के नाते, **प्रतिष्ठा** के महत्व को समझती होंगी और यह भी जानती होंगी कि **मानहानि** पीड़ित की **साख और सार्वजनिक सम्मान** को कैसे प्रभावित कर सकती है।"

• However, it observed that **punishment** must be commensurate with the **gravity of the offence**. In the present case, the offence **does not warrant a sentence of imprisonment**, the court said.

हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि **सजा** अपराध की **गंभीरता के अनुरूप** होनी चाहिए। इस मामले में अपराध **कारावास की सजा का औचित्य नहीं रखता।**

• It also **reduced the fine** of ₹10 lakh imposed on her to ₹1 lakh.

इसके साथ ही अदालत ने उन पर लगाए गए **₹10 लाख के जुर्माने** को घटाकर **₹1 लाख** कर दिया।



# Governor cannot change his mind second time: SC

Top court refers to how T.N. Governor withheld consent to 10 Bills, says that if he wanted to reserve a Bill for consideration of President, he ought to have done it in the first instance itself

## GS Paper II: Article 200

**Krishnadas Rajagopal**  
NEW DELHI

**T**he Supreme Court on Tuesday held that a Governor cannot reserve a Bill for the President's consideration when the proposed law, which was earlier rejected by him, is presented for the second time by the State Legislature.

A Bench headed by Justice J.B. Pardiwala referred to how the Tamil Nadu Governor had withheld consent to 10 Bills sent to him the first time for consent under Article 200 of the Constitution.

However, in the second round, after the Bills were re-passed by the Assembly, the Governor chose to refer them to the President.

Justice Pardiwala observed that had the Governor wanted to reserve the Bill for the consideration of the President, he ought to have done it in the first instance itself. The court said the decision of the Tamil Nadu Governor to push the Bill to the President was



...Presented again after reconsideration in accordance with the first proviso of Article 200, the Governor must grant assent forthwith or subject to a maximum of one month  
SUPREME COURT

not "bona fide".

The court clarified that a Bill is "presented again after reconsideration in accordance with the first proviso of Article 200, the Governor must grant assent forthwith or subject to a maximum of one month".

"As a general rule, it is not open for the Governor to reserve the Bill for the consideration of the President once it was presented before him in the second round after having been returned to the House previously as per the first proviso (of Article 200). The use of the expression 'shall not withhold assent thereof' appearing in the first proviso places a clear em-

bargo on the Governor and clear enunciation on the requirement that the Governor must accept the Bills which is presented to him after complying with the provisions laid down in the first proviso," the court observed.

The court said the expression 'in his discretion' was removed from Section 75 of the Government of India Act, 1935 when it was being adopted as Article 200 of the Constitution.

"This clearly indicates that any discretion available to the Governor under the Act 1935 in respect of reservation of Bills became unavailable with the commencement of the Constitution," the judge said.

**'Governor must give primacy to people's will'**

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

The Supreme Court on Tuesday observed in its order that actions of the Governor which impede the will of the people reneges the Constitutional oath of office.

"The Governor as the Constitutional head of the State is obliged to accord primacy to the will and welfare of the people of the State and earnestly work in harmony with the State machinery," the court said.

"The Governor must be conscious to not create roadblocks or chokehold the State legislature in order to thwart and break the will of the people for political ends," the top court observed.

**Governor cannot change his mind second time: SC**

**राज्यपाल दोबारा अपना मन नहीं बदल सकते: सुप्रीम कोर्ट**



The Supreme Court on Tuesday held that a Governor cannot reserve a Bill for the President's consideration when the proposed law, which was earlier rejected by him, is presented for the second time by the State Legislature.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक राज्यपाल किसी प्रस्तावित कानून को, जिसे उन्होंने पहले अस्वीकृत किया था, अगर वह कानून राज्य विधानमंडल द्वारा दूसरी बार प्रस्तुत किया जाता है, तो वह उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित नहीं रख सकते।

• A Bench headed by Justice J.B. Pardiwala referred to how the Tamil Nadu Governor had withheld consent to 10 Bills sent to him the first time for consent under Article 200 of the Constitution.

न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पहली बार भेजे गए 10 विधेयकों पर सहमति देने से इनकार कर दिया था।

• However, in the second round, after the Bills were re-passed by the Assembly, the Governor chose to refer them to the President.

हालांकि, दूसरी बार, जब ये विधेयक विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए गए, तब राज्यपाल ने उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय लिया।

• Justice Pardiwala observed that had the Governor wanted to reserve the Bill for the consideration of the President, he ought to have done it in the first instance itself.

न्यायमूर्ति पारडीवाला ने कहा कि यदि राज्यपाल को यह विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना था, तो यह उन्हें पहली बार में ही करना चाहिए था।

• The court said the decision of the Tamil Nadu Governor to push the Bill to the President was not "bona fide".

अदालत ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय "ईमानदार नहीं था"।

• The court clarified that a Bill presented again after reconsideration in accordance with the first proviso of Article 200, the Governor must grant assent forthwith or subject to a maximum of one month.

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर कोई विधेयक अनुच्छेद 200 की पहली व्याख्या के तहत पुनर्विचार के बाद दोबारा प्रस्तुत किया गया हो, तो राज्यपाल को तुरंत या अधिकतम एक महीने के भीतर सहमति देनी होगी।

• "As a general rule, it is not open for the Governor to reserve the Bill for the President once it was presented before him in the second round after having been returned to the House previously as per the first proviso (of Article 200).

"सामान्य नियम के अनुसार, अगर कोई विधेयक पहले अनुच्छेद 200 के अनुसार सदन को लौटा दिया गया हो,



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



और उसे दूसरी बार राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया हो, तो राज्यपाल को उसे राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प नहीं होता।

• The use of the expression '**shall not withhold assent thereof**' appearing in the first proviso places a **clear embargo** on the Governor and a **clear enunciation** on the requirement that the Governor **must accept** the Bills presented after complying with provisions of the **first proviso**," the court observed.

अदालत ने कहा कि पहली व्याख्या में प्रयुक्त '**shall not withhold assent thereof**' शब्द राज्यपाल पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाते हैं, और यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पहली व्याख्या का पालन करने के बाद प्रस्तुत विधेयकों को राज्यपाल को स्वीकार करना अनिवार्य होता है।

• The court said the expression '**in his discretion**' was **removed from Section 75** of the **Government of India Act, 1935** when it was being adopted as **Article 200** of the Constitution.

अदालत ने बताया कि जब भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 75 को संविधान में अनुच्छेद 200 के रूप में अपनाया गया, तब उसमें से '**in his discretion**' शब्द हटा दिया गया था।

• "This clearly indicates that any **discretion available to the Governor** under the **Act 1935** in respect of reservation of Bills became **unavailable with the commencement of the Constitution**," the judge said.

न्यायमूर्ति ने कहा, "यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अधिनियम 1935 के तहत राज्यपाल को विधेयकों को सुरक्षित रखने का जो विवेकाधिकार था, वह संविधान के लागू होने के साथ समाप्त हो गया।"



## Modi says 52-cr. loans given under

### MUDRA

#### GS Paper II: Government Scheme

NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi, interacting with beneficiaries here on Tuesday on the 10th anniversary of the **Pradhan Mantri MUDRA Yojana**, said the scheme has turned several dreams into reality, empowering people who were previously overlooked with financial support to shine. "It illustrates that for the people of India, nothing is impossible," he said.

Mr. Modi said 52-crore loans had been disbursed under the scheme so far. He said ₹33 lakh crore has been disbursed to the citizens of India under the scheme without the need for guarantees.

"This amount is unprecedented and surpasses any financial support extended to wealthy individuals collectively," the PM said, adding that job creation through the scheme has significantly contributed to economic growth. "The earnings of common citizens have increased, enabling them to improve their living standards and invest in education for their children," he said.

He said half of the beneficiaries belonged to SC, ST and OBC communities, and over 70% of them are women.

## Modi says 52-cr. loans given under MUDRA मोदी ने कहा मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ ऋण दिए गए

Prime Minister Narendra Modi, interacting with beneficiaries on Tuesday on the 10th anniversary of the Pradhan Mantri MUDRA Yojana, said the scheme has turned several dreams into reality, empowering people who were previously overlooked with financial support to shine.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस योजना ने कई सपनों को हकीकत में बदला है और पिछड़े हुए लोगों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें उभरने का अवसर दिया है।

• "It illustrates that for the people of India, **nothing is impossible**," he said. उन्होंने कहा, "यह दिखाता है कि भारत के लोगों के लिए **कुछ भी असंभव नहीं है।**"

• Mr. Modi said **52-crore loans** had been disbursed under the scheme so far. **श्री मोदी** ने कहा कि अब तक इस योजना के तहत **52 करोड़ ऋण** वितरित किए जा चुके हैं।

• He said **₹33 lakh crore** has been disbursed to the citizens of India under the scheme **without the need for guarantees**. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत **₹33 लाख करोड़** की राशि भारतीय नागरिकों को **बिना किसी गारंटी** के दी गई है।

• "This amount is **unprecedented** and surpasses any financial support extended to wealthy individuals collectively," the PM said.

प्रधानमंत्री ने कहा, "यह राशि **अभूतपूर्व** है और यह अब तक **धनाढ्य व्यक्तियों को दी गई सभी वित्तीय सहायता से अधिक** है।"

• He added that **job creation** through the scheme has significantly contributed to **economic growth**.

उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से **रोजगार सृजन** ने **आर्थिक विकास** में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

• "The **earnings** of common citizens have increased, enabling them to improve their **living standards** and invest in **education for their children**," he said.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



उन्होंने कहा, “आम नागरिकों की आय बढ़ी है, जिससे वे अपनी जीवनशैली में सुधार कर पाए हैं और बच्चों की शिक्षा में निवेश कर पा रहे हैं।”

• He said **half of the beneficiaries** belonged to **SC, ST and OBC** communities, and **over 70%** of them are **women**.

उन्होंने बताया कि लाभार्थियों में से आधा हिस्सा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (SC, ST, OBC) से है, और 70% से अधिक महिलाएं हैं।

PATRIOTIC IAS

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



**GS Paper II: Regional Grouping**

## A regional revival

The BIMSTEC summit provided a platform for bilateral meetings

Last week's Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) summit – the sixth – which brought the leaders of seven neighbouring countries to Bangkok at a time of global turbulence, was an opportunity to reignite the regional grouping after years of stasis. Originally cast as a “bridging” mechanism between South Asia's SAARC and South East Asia's ASEAN countries, the grouping has languished due to a lack of purpose or due to political underpinnings. After the collapse of India-Pakistan ties, post-2014, SAARC has made little movement, whereas the micro-grouping of Bangladesh-Bhutan-India-Nepal ran aground after the Bhutanese Parliament rejected the Motor Vehicles Agreement between them, as a result of which New Delhi has invested in BIMSTEC. While the objective of having a summit every two years was derailed by the COVID-19 pandemic, what is important is that the summit was held in spite of a possible derailment after the earthquake in Myanmar and Thailand. But the summit proved useful, given the number of agreements and areas of cooperation. These include a BIMSTEC chamber of commerce and work on the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway that will connect India's North-East region, billed a BIMSTEC “hub”, all the way to the Pacific ocean. The BIMSTEC region is prone to natural disasters and building a joint mechanism for disaster management is critical. Negotiating a free trade agreement (FTA) and Customs agreements are among other plans outlined in a ‘Vision 2030’ document that was adopted.

Apart from the multilateral outcomes, the summit provided the leaders a rare opportunity for bilateral meetings. Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh Chief Adviser Muhammad Yunus put aside months of acrimony and aired their grievances over the treatment of minorities, border killings and former Prime Minister Sheikh Hasina's stay in India. Mr. Modi's advice that “rhetoric” must be avoided between neighbours is important, but must be followed in Dhaka and Delhi. Mr. Modi's meeting with Nepal leader K.P. Sharma Oli came after months of tensions over India's refusal to issue Mr. Oli an invite, and it is hoped that these exchanges will lead to an early visit and the resolution of issues. The inclusion of Myanmar's Prime Minister General Min Aung Hlaing was a special gesture by the BIMSTEC grouping, and it is hoped that Mr. Modi's counsel to Gen. Min and Mr. Yunus on restoring democratic processes in Myanmar and Bangladesh will be heeded. While the summit was productive, many of its initiatives are replicas of agreements once adopted by SAARC, and it is important that member-states focus on the group's cohesion and sustainability so that BIMSTEC is not allowed to atrophy the same way as SAARC did.

## A regional revival

### एक क्षेत्रीय पुनर्जीवन

The BIMSTEC summit provided a platform for bilateral meetings.

**BIMSTEC शिखर सम्मेलन ने द्विपक्षीय बैठकों के लिए एक मंच प्रदान किया।**

• Last week's Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) summit — the sixth — which brought the leaders of seven neighbouring countries to Bangkok at a time of global turbulence, was an opportunity to reignite the regional grouping after years of stasis.

पिछले सप्ताह का बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन — जो छठा था — और जिसमें सात पड़ोसी देशों के नेता बैंकॉक में वैश्विक अस्थिरता के समय एकत्र हुए, क्षेत्रीय संगठन को वर्षों की निष्क्रियता के बाद पुनर्जीवित करने का एक अवसर था।

• Originally cast as a “bridging” mechanism between South Asia's SAARC and South East Asia's ASEAN countries, the grouping has languished due to a lack of purpose or due to political underpinnings.

मूल रूप से इसे दक्षिण एशिया के सार्क और दक्षिण-पूर्व एशिया के आसियान देशों के बीच सेतु के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन यह संगठन उद्देश्य की कमी और राजनीतिक कारणों के चलते सुस्त पड़ गया।

• After the collapse of India-Pakistan ties post-2014, SAARC has made little movement, whereas the micro-grouping of Bangladesh-Bhutan-India-Nepal ran aground after the Bhutanese Parliament rejected the Motor Vehicles Agreement.

2014 के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों के टूटने के बाद सार्क में कोई खास प्रगति नहीं हुई, जबकि बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल के सूक्ष्म समूह का प्रयास भूटान की संसद द्वारा मोटर वाहन समझौते को अस्वीकार करने के कारण रुक गया।

• As a result of which New Delhi has invested in BIMSTEC. इस कारण से नई दिल्ली ने बिम्सटेक में निवेश किया है।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• While the objective of having a summit every **two years** was derailed by the **COVID-19 pandemic**, what is important is that the summit was held in spite of a possible derailment after the **earthquake in Myanmar and Thailand**.

जहां हर **दो वर्षों** में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का लक्ष्य **कोविड-19 महामारी** के कारण बाधित हो गया, वहीं यह महत्वपूर्ण है कि **म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप** के बावजूद सम्मेलन आयोजित हुआ।

• The summit proved useful, given the number of **agreements and areas of cooperation**. सम्मेलन उपयोगी साबित हुआ, खासकर **समझौतों और सहयोग के क्षेत्रों** की संख्या को देखते हुए।

• These include a **BIMSTEC chamber of commerce** and work on the **India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway** that will connect **India's North-East region** all the way to the **Pacific Ocean**.

इसमें **बिम्सटेक वाणिज्य मंडल** की स्थापना और **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** पर कार्य शामिल है, जो **भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को प्रशांत महासागर तक** जोड़ेगा।

• The **BIMSTEC region** is prone to **natural disasters** and building a joint mechanism for **disaster management** is critical.

**बिम्सटेक क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं** के प्रति संवेदनशील है और **आपदा प्रबंधन** के लिए एक संयुक्त तंत्र बनाना आवश्यक है।

• Negotiating a **free trade agreement (FTA)** and **Customs agreements** are among other plans outlined in a **'Vision 2030'** document that was adopted.

**मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** और **सीमा शुल्क समझौते** पर बातचीत जैसे अन्य योजनाएं भी स्वीकृत **'विज़न 2030'** दस्तावेज़ में शामिल हैं।

• Apart from the **multilateral outcomes**, the summit provided the leaders a **rare opportunity for bilateral meetings**.

**बहुपक्षीय परिणामों** के अलावा, यह शिखर सम्मेलन नेताओं को **दुर्लभ द्विपक्षीय बैठकें** करने का अवसर भी प्रदान करता है।

• Prime Minister **Narendra Modi** and Bangladesh Chief Adviser **Muhammad Yunus** put aside months of **acrimony** and aired their grievances over the **treatment of minorities, border killings, and former PM Sheikh Hasina's stay in India**.

प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार **मुहम्मद यूनस** ने **अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार, सीमा पर हत्याएं, और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में रुकने को लेकर अपनी नाराज़गी साझा** की।

• Mr. Modi's advice that **"rhetoric" must be avoided between neighbours** is important, but must be followed in **Dhaka and Delhi**.

श्री मोदी की सलाह कि **"पड़ोसियों के बीच बयानबाज़ी से बचना चाहिए"** महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका पालन **ढाका और दिल्ली** दोनों में होना चाहिए।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• Mr. Modi's meeting with **Nepal leader K.P. Sharma Oli** came after months of **tensions** over India's **refusal to issue an invite**, and it is hoped that these exchanges will lead to an **early visit and resolution of issues**.

श्री मोदी की नेपाल के नेता के.पी. शर्मा ओली से मुलाकात भारत द्वारा निमंत्रण न दिए जाने पर महीनों चले तनाव के बाद हुई, और आशा है कि इस तरह की बातचीत से शीघ्र यात्रा और मसलों का समाधान संभव होगा।

• The inclusion of **Myanmar's PM General Min Aung Hlaing** was a **special gesture** by the BIMSTEC grouping.

म्यांमार के प्रधानमंत्री जनरल मिन आंग हलाइंग को शामिल करना बिम्सटेक समूह की ओर से एक विशेष संकेत था।

• It is hoped that **Mr. Modi's counsel to Gen. Min and Mr. Yunus on restoring democratic processes in Myanmar and Bangladesh** will be heeded.

आशा है कि श्री मोदी द्वारा जनरल मिन और श्री यूनुस को म्यांमार और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बहाल करने की दी गई सलाह पर अमल किया जाएगा।

• While the summit was **productive**, many of its initiatives are **replicas of agreements** once adopted by **SAARC**, and it is important that **member-states focus on cohesion and sustainability** so that **BIMSTEC** is not allowed to **atrophy** the same way as SAARC did.

हालांकि यह सम्मेलन उपजाऊ रहा, फिर भी इसकी कई पहलें पहले सार्क द्वारा अपनाए गए समझौतों की पुनरावृत्ति हैं, इसलिए यह जरूरी है कि सदस्य देश एकजुटता और स्थिरता पर ध्यान दें ताकि बिम्सटेक भी सार्क की तरह मंद न हो जाए।



# The gradual transformation of the Home Ministry

GS Paper II: Governance

**G**overnments are often judged by how well they react, but true leadership is about how well they reform. Ministries tend to excel in responding to crises such as managing disasters, controlling conflicts, and restoring law and order. While necessary, this approach only addresses immediate threats without securing long-term solutions. Reforms, on the other hand, shape governance for the future.

When Prime Minister Narendra Modi speaks of 'Reform, Perform, and Transform', he highlights the need for structural reforms rather than temporary fixes. This shift is very much visible in the Ministry of Home Affairs (MHA), which was traditionally seen as a 'Crisis Ministry,' stepping in when riots erupted, insurgencies escalated, or States faced governance failures. Its interventions were often reactive, tackling unrest rather than preventing it through institutional reforms.

## A new focus

In recent years, the MHA has fundamentally transformed itself, moving from crisis response to building a structured security architecture. It now focuses on strengthening counter-terror laws, modernising agencies, adopting technology and improving intelligence coordination. From legislative overhauls to institutional restructuring, the Ministry is pre-empting threats, ensuring that India's internal security is future ready.

The MHA is the backbone of India's internal security and federal governance. Unlike many countries that divide security and governance, the MHA integrates them, making it a critical pillar of national stability. The Indian Constitution empowers the MHA through [Articles 355, 256, and 356](#), ensuring Centre-State coordination on security matters.

The MHA's growth has largely been shaped by security challenges of the day. The [rise of terrorism and insurgency since the 1980s](#) led to increased security spending. [Punjab's militancy, Kashmir's terrorism, and Maoist violence](#) required direct intervention, as State police struggled to contain these threats. Many States were slow to modernise their police forces, increasing their reliance on the [Central Armed Police Forces or the CAPFs \(Assam Rifles; Border Security Force; Central Industrial Security Force, or CISF; Central Reserve Police Force; Indo-Tibetan Border Police; National Security Guard and Sashastra Seema Bal\)](#). [Reliance on the Rapid Action Force \(RAF\) of the CRPF for riot control](#) is one example..

Industrial unrest in the 1970s-80s had some role in the creation of the CISF – to manage strikes, particularly in West Bengal and Kerala.



**Abhishek M. Chaudhari**

is currently pursuing public administration at the Harvard Kennedy School. He has an interest in politics, security, and technology

Meanwhile, administrative restructuring saw north-east affairs and the Department of Justice separated from the MHA, while Disaster Management and the Narcotics Control Bureau (NCB) were added.

For nearly four decades, India's three major security hotspots, i.e., Kashmir, the North-East, and Central India (Naxal areas) dominated the MHA's priorities, costing thousands of lives. The lives of nearly 36,000 personnel and an equal number of civilians have been lost, with security forces largely turning their focus on these conflict zones.

This focus on insurgency, terrorism and border security has meant that other critical areas such as police modernisation, agency coordination, narcotics control, technology adoption, disaster management and federal governance have received less attention.

Frequent leadership changes have historically affected the Home Ministry's policymaking. Indira Gandhi's third term and Rajiv Gandhi's tenure saw four Home Ministers, leading to instability in internal security reforms. It is only Prime Ministers P.V. Narasimha Rao and Atal Bihari Vajpayee who had a single Home Minister throughout their full tenure. Mr. Modi has maintained stability at the MHA, in a reinforcement of a long-term vision for internal security and governance.

## Reforms and a shift in responses

On the legislative front, the MHA's earlier responses were largely event-driven. The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, or TADA, was enacted after the Punjab insurgency, the Prevention of Terrorism Act (POTA) after the 2001 Parliament attack, and the National Investigation Agency (NIA) was formed after the 26/11 Mumbai attacks. These laws, though critical, were reactive/reactions rather than being a part of a structured security framework. But since 2019, over 27 legislative reforms have established a strong security jurisprudence, shaping law enforcement and national stability. These include transformative changes in terror jurisprudence, Kashmir integration and the criminal justice system.

The idea of whole-of-government now drives a multi-agency approach, where legislative provisions are backed by operational strengthening, budgetary support and outcome-oriented reviews.

India has long faced terror threats, but past responses have often been short-sighted and temporary. The current Home Ministry has strengthened terror jurisprudence – amending the NIA Act and the Unlawful Activities

(Prevention) Act, or UAPA, by defining terrorism in Indian criminal law, and aiming to financially choke terror groups. But at the same time, this has been complemented by strengthening and expanding the NIA, creating technology databases, revamping the Multi-Agency Centre (MAC), and promoting a 'duty to share' intelligence culture.

A similar approach is visible in criminal justice system reforms. Three new criminal laws (the Bharatiya Nyaya Sanhita, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam) have been enacted but their foundation was laid much earlier. There has also been the establishment of the National Forensic Sciences University (NFSU) and full implementation of the Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) which integrates 17,130 police stations, courts, jails and forensic laboratories. States are now encouraged to separate investigation from forensics, further strengthening the justice system.

In 2019, for the first time, the MHA budget crossed ₹1 lakh crore. The 2025 Budget allocation has surged to ₹2.33 lakh crore, reflecting the government's focus on internal security and modernisation. The expenditure on the Central Paramilitary Forces has also risen, from ₹38,000 crore in 2013-14 to ₹97,000 crore in 2024-25, highlighting the enhanced investment in national security and force modernisation.

## Impact on the ground

The new approach has led to a significant reduction in violence across Kashmir, the North-East, and Naxal-affected areas. The dilution of Article 370, peace deals in the North-East, and a dual strategy of a filling up of security and development vacuums in Naxal-affected regions have collectively transformed India's internal security landscape. These measures have attempted full integration, political stability, and economic growth in conflict-prone areas. The impact is evident – violence across these three major hotspots has declined by 70%, incidents of stone pelting in Kashmir have declined, insurgency in the North-East has weakened, and Naxal strongholds are witnessing social transformation.

The MHA has evolved from a crisis-response body to a structured, proactive institution. By shifting from reactionary interventions to strategic reforms, it has strengthened India's internal security architecture and built a future-ready governance framework. The MHA is now preempting threats rather than merely responding to them, shaping India's internal security for the years ahead.

There has been an evolution, from a crisis-response body to a structured and proactive institution

## The gradual transformation of the Home Ministry

### गृह मंत्रालय का धीरे-धीरे रूपांतरण

Governments are often judged by how well they react, but true leadership is about how well they reform.

सरकारों को आमतौर पर इस आधार पर आंका जाता है कि वे कितनी अच्छी तरह से प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन असली नेतृत्व इस बात में होता है कि वे कितनी अच्छी तरह से सुधार करती हैं।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• Ministries tend to excel in responding to **crises** such as managing **disasters**, controlling **conflicts**, and restoring **law and order**.

मंत्रालय आमतौर पर आपदाओं, संघर्षों और कानून-व्यवस्था बहाल करने जैसे संकटों से निपटने में कुशल होते हैं।

• While necessary, this approach only addresses **immediate threats** without securing **long-term solutions**.

हालांकि यह आवश्यक होता है, लेकिन यह तरीका केवल **तत्काल खतरों** का समाधान करता है, **दीर्घकालिक समाधान** सुनिश्चित नहीं करता।

• Reforms, on the other hand, shape **governance for the future**.

वहीं, **सुधार** भविष्य की शासन व्यवस्था को आकार देते हैं।

• When Prime Minister **Narendra Modi** speaks of '**Reform, Perform, and Transform**', he highlights the need for **structural reforms** rather than **temporary fixes**.

जब प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' की बात करते हैं, तो वे **संरचनात्मक सुधारों** की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं न कि **अस्थायी समाधानों** की।

• This shift is very much visible in the **Ministry of Home Affairs (MHA)**, which was traditionally seen as a '**Crisis Ministry**'.

यह परिवर्तन **गृह मंत्रालय (MHA)** में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसे पारंपरिक रूप से '**संकट मंत्रालय**' माना जाता था।

• Its interventions were often **reactive**, tackling **unrest** rather than preventing it through **institutional reforms**.

इसके हस्तक्षेप अक्सर **प्रतिक्रियात्मक** होते थे, जो **अशांति** को **संस्थागत सुधारों** के माध्यम से रोकने के बजाय उसका समाधान करते थे।

## A new focus

### एक नया फोकस

• In recent years, the **MHA** has fundamentally transformed itself, moving from **crisis response** to building a **structured security architecture**.

हाल के वर्षों में, **गृह मंत्रालय** ने स्वयं को **संकट प्रतिक्रिया** से हटाकर **संगठित सुरक्षा संरचना** तैयार करने की दिशा में पूरी तरह रूपांतरित किया है।

• It now focuses on **strengthening counter-terror laws**, **modernising agencies**, **adopting technology**, and **improving intelligence coordination**.

अब यह **आतंकवाद विरोधी कानूनों** को मजबूत करने, **एजेंसियों** का **आधुनिकीकरण**, **तकनीक** को अपनाने और **खुफिया समन्वय** को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• From **legislative overhauls** to **institutional restructuring**, the Ministry is **pre-empting threats**, ensuring that **India's internal security** is future ready.

कानूनी सुधारों से लेकर संस्थागत पुनर्गठन तक, मंत्रालय खतरों को पहले ही पहचानने की दिशा में काम कर रहा है ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा भविष्य के लिए तैयार हो।

• The **MHA** is the **backbone** of **India's internal security** and **federal governance**.

गृह मंत्रालय भारत की आंतरिक सुरक्षा और संघीय शासन की रीढ़ है।

• Unlike many countries that divide **security and governance**, the MHA **integrates** them, making it a **critical pillar** of **national stability**.

कई देशों के विपरीत जो सुरक्षा और शासन को अलग रखते हैं, गृह मंत्रालय इन्हें एकीकृत करता है, जिससे यह राष्ट्रीय स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता है।

• The **Indian Constitution** empowers the **MHA** through **Articles 355, 256, and 356**, ensuring **Centre-State coordination** on **security matters**.

भारतीय संविधान अनुच्छेद 355, 256 और 356 के माध्यम से गृह मंत्रालय को सशक्त बनाता है, जो सुरक्षा मामलों में केंद्र-राज्य समन्वय सुनिश्चित करता है।

• The **MHA's growth** has largely been shaped by **security challenges** of the day.

गृह मंत्रालय का विकास मुख्यतः समय-समय की सुरक्षा चुनौतियों द्वारा प्रभावित रहा है।

• The rise of **terrorism and insurgency** since the **1980s** led to increased **security spending**.

1980 के दशक से आतंकवाद और उग्रवाद के बढ़ने से सुरक्षा खर्च में वृद्धि हुई।

• **Punjab's militancy**, **Kashmir's terrorism**, and **Maoist violence** required **direct intervention**, as **State police** struggled to contain these threats.

पंजाब में उग्रवाद, कश्मीर में आतंकवाद, और माओवादी हिंसा ने सीधी हस्तक्षेप की मांग की, क्योंकि राज्य पुलिस इन खतरों से निपटने में असमर्थ रही।

• Many States were slow to **modernise their police forces**, increasing their reliance on the **Central Armed Police Forces (CAPFs)**.

कई राज्य अपनी पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में धीमे रहे, जिससे उनकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) पर निर्भरता बढ़ गई।

• CAPFs include **Assam Rifles**, **Border Security Force**, **Central Industrial Security Force (CISF)**, **Central Reserve Police Force (CRPF)**, **Indo-Tibetan Border Police**, **National Security Guard**, and **Sashastra Seema Bal**.

CAPFs में असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा बल शामिल हैं।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• Reliance on the **Rapid Action Force (RAF)** of the **CRPF** for **riot control** is one example.  
दंगों पर नियंत्रण के लिए **CRPF** की **रैपिड एक्शन फोर्स (RAF)** पर निर्भरता इसका एक उदाहरण है।

• **Industrial unrest** in the **1970s-80s** had some role in the creation of the **CISF**, particularly in **West Bengal** and **Kerala**.

**1970-80** के दशक में औद्योगिक अशांति ने **CISF** की स्थापना में कुछ भूमिका निभाई, खासकर **पश्चिम बंगाल** और **केरल** में।

• Meanwhile, **administrative restructuring** saw **north-east affairs** and the **Department of Justice** separated from the **MHA**, while **Disaster Management** and **Narcotics Control Bureau (NCB)** were added.

इस बीच, प्रशासनिक पुनर्गठन में पूर्वोत्तर मामलों और न्याय विभाग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया, जबकि आपदा प्रबंधन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को इसमें जोड़ा गया।

• For nearly **four decades**, India's **three major security hotspots** — **Kashmir**, the **North-East**, and **Central India (Naxal areas)** — dominated the **MHA's** priorities.

करीब चार दशकों तक भारत के तीन प्रमुख सुरक्षा संकट क्षेत्र — **कश्मीर**, **पूर्वोत्तर** और **मध्य भारत (नक्सल क्षेत्र)** — गृह मंत्रालय की प्राथमिकताओं पर हावी रहे।

• Nearly **36,000 personnel** and an equal number of **civilians** have been lost in these **conflict zones**.

इन संघर्ष क्षेत्रों में लगभग **36,000 सुरक्षाकर्मी** और उतनी ही संख्या में **नागरिकों** की जान गई है।

• The focus on **insurgency**, **terrorism**, and **border security** meant other critical areas like **police modernisation**, **agency coordination**, **narcotics control**, **technology adoption**, **disaster management**, and **federal governance** received less attention.

उग्रवाद, आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के कारण पुलिस आधुनिकीकरण, एजेंसी समन्वय, नशीले पदार्थ नियंत्रण, प्रौद्योगिकी अपनाना, आपदा प्रबंधन और संघीय शासन जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कम महत्व मिला।

• Frequent **leadership changes** have historically affected the **Home Ministry's** policymaking.  
अक्सर होने वाले नेतृत्व परिवर्तन ने ऐतिहासिक रूप से गृह मंत्रालय की नीतियों को प्रभावित किया है।

• **Indira Gandhi's** third term and **Rajiv Gandhi's** tenure saw **four Home Ministers**, leading to **instability in internal security reforms**.

इंदिरा गांधी के तीसरे कार्यकाल और राजीव गांधी के शासनकाल में चार गृह मंत्री रहे, जिससे आंतरिक सुरक्षा सुधारों में अस्थिरता आई।

• It is only under **Prime Ministers P.V. Narasimha Rao** and **Atal Bihari Vajpayee** that there was a **single Home Minister** throughout their full tenure.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



केवल प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही पूरे समय एक ही गृह मंत्री रहे।

• Mr. Modi has maintained **stability** at the MHA, reinforcing a **long-term vision** for **internal security** and **governance**.

श्री मोदी ने गृह मंत्रालय में स्थिरता बनाए रखी है, जिससे आंतरिक सुरक्षा और शासन के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बल मिला है।

## Reforms and a shift in responses

### सुधार और प्रतिक्रिया के तरीके में बदलाव

- On the legislative front, the MHA's earlier responses were largely **event-driven**.
- विधायी मोर्चे पर, गृह मंत्रालय की पहले की प्रतिक्रियाएं मुख्य रूप से घटनाओं पर आधारित थीं।
- The **Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA)** was enacted after the **Punjab insurgency**, the **Prevention of Terrorism Act (POTA)** after the **2001 Parliament attack**, and the **National Investigation Agency (NIA)** was formed after the **26/11 Mumbai attacks**.
- पंजाब में उग्रवाद के बाद TADA, 2001 संसद हमले के बाद POTA, और 26/11 मुंबई हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का गठन किया गया।
- These laws, though critical, were **reactive** rather than part of a **structured security framework**.
- ये कानून महत्वपूर्ण तो थे, लेकिन ये प्रतिक्रियात्मक थे, न कि किसी संरचित सुरक्षा ढांचे का हिस्सा।
- Since **2019**, over **27 legislative reforms** have created **strong security jurisprudence**, shaping **law enforcement** and **national stability**.
- 2019 से अब तक 27 से अधिक विधायी सुधार हुए हैं, जिनसे मजबूत सुरक्षा न्यायशास्त्र बना है, और कानून प्रवर्तन व राष्ट्रीय स्थिरता को आकार मिला है।
- These include key changes in **terror jurisprudence**, **Kashmir integration**, and the **criminal justice system**.
- इनमें आतंकवाद कानून, कश्मीर का एकीकरण, और आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव शामिल हैं।
- The idea of **whole-of-government** now supports a **multi-agency approach** with **operational strengthening**, **budgetary support**, and **outcome-oriented reviews**.
- अब पूरे सरकारी ढांचे की अवधारणा के तहत बहु-एजेंसी दृष्टिकोण को संचालनात्मक मजबूती, बजट सहायता, और परिणाम आधारित समीक्षा का समर्थन प्राप्त है।
- India has long faced **terror threats**, but earlier responses were often **short-sighted and temporary**.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• भारत को लंबे समय से आतंकी खतरों का सामना करना पड़ा है, लेकिन पहले की प्रतिक्रियाएं अक्सर अल्पकालिक और तात्कालिक थीं।

• The Home Ministry amended the **NIA Act** and **UAPA**, defined **terrorism** in law, and aimed to **financially choke terror groups**.

• गृह मंत्रालय ने **NIA अधिनियम** और **UAPA** में संशोधन कर **आतंकवाद की परिभाषा** दी और **आतंकी संगठनों की आर्थिक नाकेबंदी** का लक्ष्य रखा।

• This was supported by expanding the **NIA**, creating **tech databases**, revamping the **MAC**, and encouraging **intelligence sharing**.

• इसे **NIA के विस्तार**, **तकनीकी डाटाबेस**, **MAC का पुनर्गठन**, और **खुफिया जानकारी साझा करने** से मजबूत किया गया।

• Reforms in the **criminal justice system** are also significant.

• **आपराधिक न्याय प्रणाली** में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

• Three new laws — **Bharatiya Nyaya Sanhita**, **Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita**, and **Bharatiya Sakshya Adhinyam** — have been enacted.

• **भारतीय न्याय संहिता**, **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, और **भारतीय साक्ष्य अधिनियम** लागू किए गए हैं।

• The **National Forensic Sciences University (NFSU)** was established, and **CCTNS** integrated **17,130 police stations, courts, jails, and forensic labs**.

• **राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU)** की स्थापना हुई और **CCTNS** ने **17,130 पुलिस थाने, अदालतें, जेल, और फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं** जोड़ीं।

• States are encouraged to separate **investigation** from **forensics**, enhancing justice delivery.

• राज्यों को **जांच को फॉरेंसिक से अलग करने** के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे न्याय प्रणाली मजबूत हो रही है।

• In **2019**, MHA's budget crossed **₹1 lakh crore** for the first time.

• **2019** में पहली बार **गृह मंत्रालय का बजट ₹1 लाख करोड़** से अधिक हुआ।

• In **2025**, allocation surged to **₹2.33 lakh crore**, showing focus on **internal security** and **modernisation**.

• **2025** में बजट बढ़कर **₹2.33 लाख करोड़** हो गया, जो **आंतरिक सुरक्षा** और **आधुनिकीकरण** पर ध्यान दर्शाता है।

• **Central Paramilitary Forces'** expenditure rose from **₹38,000 crore (2013-14)** to **₹97,000 crore (2024-25)**.

• **केंद्रीय अर्धसैनिक बलों** पर खर्च **₹38,000 करोड़ (2013-14)** से बढ़कर **₹97,000 करोड़ (2024-25)** हो गया है।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



## Impact on the ground

### जमीनी स्तर पर प्रभाव

- Violence has reduced significantly in **Kashmir, North-East, and Naxal-affected regions**.
- कश्मीर, पूर्वोत्तर, और नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **Article 370 dilution, peace deals, and focus on security + development** filled critical gaps.
- अनुच्छेद 370 का कमजोर किया जाना, शांति समझौते, और सुरक्षा व विकास पर ध्यान ने अहम खालीपन को भरा।
- These steps helped in **full integration, political stability, and economic growth** in conflict zones.
- इन उपायों ने संघर्ष क्षेत्रों में पूर्ण एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता, और आर्थिक विकास को बढ़ाया।
- Results: **70% decline in violence**, drop in **stone pelting** in Kashmir, **weakened insurgency** in North-East, and **social transformation** in Naxal areas.
- परिणाम: हिंसा में 70% की कमी, कश्मीर में पथराव में गिरावट, पूर्वोत्तर में उग्रवाद कमजोर, और नक्सली क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन।
- MHA has shifted from a **crisis-response body** to a **structured, proactive institution**.
- गृह मंत्रालय अब संकट-प्रतिक्रिया निकाय से एक संरचित, सक्रिय संस्था बन गया है।
- The shift to **strategic reforms** has strengthened India's **internal security framework** and built a **future-ready governance model**.
- रणनीतिक सुधारों ने भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को मजबूत किया और एक भविष्य-उन्मुख प्रशासन मॉडल बनाया।
- MHA now **preempts threats** rather than merely responding, shaping long-term **internal security**.
- अब गृह मंत्रालय केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय खतरों का पहले से अनुमान लगाकर काम करता है और दीर्घकालीन आंतरिक सुरक्षा को आकार देता है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



# What is the current political situation in South Korea?

Why did former President Yoon Suk Yeol declare martial law last year? Did the Corruption Investigation Office try to arrest the former President?

GS Paper II: East Asia

## The story so far:

In April 4, South Korea's constitutional court upheld the impeachment of former President Yoon Suk Yeol. The Court unanimously (8-0) agreed in favour of the impeachment. Mr. Yoon is the second president to be removed from office in the last eight years. According to the constitution, South Korea will have to elect a new President within 60 days.

## What led to his impeachment?

On December 3, 2024, President Yoon announced an emergency and declared martial law to protect South Korea from "anti-state forces" and to eliminate "despicable pro-North Koreans." This was the 17th martial law in the history of independent South Korea. Six hours later, the National Assembly convened and 190

members voted in favour of lifting the martial law under Article 77. On December 14, 2024, in its second motion, the Assembly succeeded in voting President Yoon out of office with 204 votes in favour. Of the 300 seats in the National Assembly, the Democratic Party of Korea (DPK) holds 170, while the People's Power Party (PPP), to which Mr. Yoon belongs, has 108 seats.

## What happened after impeachment?

The declaration of martial law and the impeachment motion ignited public protests across South Korea. It polarised society; thousands protested against the impeachment, supporting Mr. Yoon, while 2,00,000 people gathered outside the parliament, supporting his removal. On January 17, the Corruption Investigation Office requested an arrest warrant against Mr. Yoon, which was approved, leading to Yoon supporters

attacking the courthouse. The 11th and final hearing on the martial decree took place on February 25. In his last hearing, he stated that his intention was only to warn the public of anti-state forces.

## What does the verdict say?

The constitutional court upheld the impeachment of Mr. Yoon and expressed disillusionment with his reasoning. It held that Mr. Yoon did not follow the constitutional mandate, rules, and procedure. While Mr. Yoon argued that he imposed martial law due to the presence of anti-state forces, the verdict contradicted the same and stated that he declared martial law to overcome the National Assembly, which composed mostly of the opposition. The verdict ruled that his actions threatened the military's political neutrality and placed the soldiers serving the nation in direct confrontation with its people.

Furthermore, the verdict argued that the political and economic cost of impeachment is more acceptable than the negative repercussions of a violated constitutional and democratic process. Mr. Yoon's claims of alleged election fraud were also dismissed. Based on all the above, the court upheld the removal of Mr. Yoon and said he "abandoned his duty to uphold the Constitution and gravely betrayed the trust of the sovereign citizens of Korea." Mr. Yoon will now face a series of criminal charges that he was shielded from during his tenure.

## What is next for South Korea?

The Presidential elections will be held on June 3. As crowds of supporters and protestors clear off the streets, the interim heads and security forces are on high alert to maintain peace and order. The PPP is now in disarray, with Mr. Yoon being seen as a wronged leader by many of his supporters. Lee Jae-Myung of the DPK is the most favoured contender for the elections. He had led his party to victory in last year's parliamentary elections. South Korea also faces an external challenge with the U.S. imposing 25% "reciprocal tariffs". Thus, the next President will have to address both political and economic challenges.

Femy Francis is a researcher at Global Politics Area Studies on China, East Asia and the Pacific at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru

## THE GIST

On December 3, 2024, President Yoon announced an emergency and declared martial law to protect South Korea from "anti-state forces" and to eliminate "despicable pro-North Koreans."

On December 14, 2024, in its second motion, the Assembly succeeded in voting President Yoon out of his office with 204 votes in favour.

The constitutional court upheld the impeachment of Mr. Yoon and expressed disillusionment with his reasoning.

## Current Political Situation in South Korea

### दक्षिण कोरिया में वर्तमान राजनीतिक स्थिति

On April 4, South Korea's constitutional court upheld the impeachment of former President Yoon Suk Yeol.

4 अप्रैल को दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग को बरकरार रखा।

- The Court unanimously (8-0) agreed in favour of the impeachment.
- अदालत ने सर्वसम्मति से (8-0) महाभियोग के पक्ष में फैसला दिया।
- Mr. Yoon is the **second president** to be removed from office in the last **eight years**.
- श्री योन पिछले 8 वर्षों में पद से हटाए जाने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं।
- According to the **constitution**, South Korea will have to **elect a new President within 60 days**.
- संविधान के अनुसार, दक्षिण कोरिया को 60 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा।

## What led to his impeachment?

महाभियोग के पीछे क्या कारण था?

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur  
Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)  
Contact Number : 9971932488  
Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• On **December 3, 2024**, President Yoon announced an **emergency** and declared **martial law** to protect South Korea from “**anti-state forces**” and to eliminate “**despicable pro-North Koreans.**”

• **3 दिसंबर 2024** को राष्ट्रपति योन ने **आपातकाल** की घोषणा की और **मार्शल लॉ** लागू किया ताकि दक्षिण कोरिया को “**राष्ट्र-विरोधी ताकतों**” से बचाया जा सके और “**घृणित उत्तर कोरिया समर्थकों**” को समाप्त किया जा सके।

• This was the **17th martial law** in the history of **independent South Korea.**

• यह **स्वतंत्र दक्षिण कोरिया** के इतिहास में **17वां मार्शल लॉ** था।

• **Six hours later**, the **National Assembly** convened and **190 members** voted in favour of lifting the martial law under **Article 77.**

• **छह घंटे बाद**, **राष्ट्रीय सभा** ने बैठक बुलाई और **190 सदस्यों** ने **अनुच्छेद 77** के तहत **मार्शल लॉ** हटाने के पक्ष में वोट दिया।

• On **December 14, 2024**, in its second motion, the Assembly voted President Yoon out of office with **204 votes** in favour.

• **14 दिसंबर 2024** को, अपने दूसरे प्रस्ताव में, विधानसभा ने **204 वोटों** से राष्ट्रपति योन को पद से हटा दिया।

• Of the **300 seats** in the National Assembly, the **Democratic Party of Korea (DPK)** holds **170**, while the **People’s Power Party (PPP)**, to which Mr. Yoon belongs, has **108 seats.**

• **राष्ट्रीय सभा** की **300 सीटों** में से **डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया (DPK)** के पास **170 सीटें** हैं, जबकि **पीपल्स पावर पार्टी (PPP)**, जिससे योन संबंधित हैं, के पास **108 सीटें** हैं।

## What happened after impeachment?

### महाभियोग के बाद क्या हुआ?

• The declaration of **martial law** and the **impeachment motion** ignited **public protests** across South Korea.

• **मार्शल लॉ** की घोषणा और **महाभियोग प्रस्ताव** ने पूरे दक्षिण कोरिया में **जन विरोध** भड़का दिया।

• It **polarised society**; thousands protested against the impeachment, supporting Mr. Yoon, while **2,00,000 people** gathered outside the parliament, supporting his removal.

• इससे **समाज में विभाजन** पैदा हुआ; हजारों लोगों ने योन के समर्थन में महाभियोग का विरोध किया, जबकि **2,00,000 लोग** संसद के बाहर योन को हटाने के समर्थन में एकत्र हुए।

• On **January 17**, the **Corruption Investigation Office** requested an **arrest warrant** against Mr. Yoon, which was approved.

• **17 जनवरी** को **भ्रष्टाचार जांच कार्यालय** ने श्री योन के खिलाफ **गिरफ्तारी वारंट** की मांग की, जिसे मंजूरी मिल गई।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- This led to **Yoon supporters attacking the courthouse.**
- इसके कारण योन समर्थकों ने अदालत पर हमला किया।
- The **11th and final hearing** on the martial decree took place on **February 25.**
- मार्शल लॉ डिक्री पर 11वीं और अंतिम सुनवाई 25 फरवरी को हुई।
- In his last hearing, he stated that his intention was only to **warn the public of anti-state forces.**
- अपनी अंतिम सुनवाई में उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल **जनता को राष्ट्र-विरोधी ताकतों से सतर्क करना** था।

## What does the verdict say?

### निर्णय में क्या कहा गया है?

- The **constitutional court** upheld the impeachment and expressed **disillusionment** with Mr. Yoon's reasoning.
- **संवैधानिक अदालत** ने महाभियोग को बरकरार रखा और योन के तर्कों पर **निराशा** जताई।
- It held that Mr. Yoon did not follow the **constitutional mandate, rules, and procedure.**
- अदालत ने कहा कि योन ने **संवैधानिक आदेश, नियमों और प्रक्रियाओं** का पालन नहीं किया।
- While Mr. Yoon argued that he imposed martial law due to **anti-state forces**, the verdict stated he did it to **overcome the National Assembly**, which composed mostly of the **opposition.**
- योन ने कहा कि उन्होंने **राष्ट्र-विरोधी ताकतों** के कारण मार्शल लॉ लगाया, लेकिन फैसले में कहा गया कि उन्होंने ऐसा **राष्ट्रीय सभा पर काबू पाने** के लिए किया, जो **विपक्षी दलों** से भरी हुई थी।
- The verdict ruled that his actions **threatened the military's political neutrality** and placed **soldiers in direct confrontation with the people.**
- फैसले में कहा गया कि उनकी कार्रवाई से **सेना की राजनीतिक निष्पक्षता** को खतरा हुआ और **सैनिकों को जनता के सामने खड़ा** कर दिया गया।
- Furthermore, the court said that the **political and economic cost of impeachment** is more acceptable than the **repercussions of violating the Constitution.**
- अदालत ने यह भी कहा कि **महाभियोग की राजनीतिक और आर्थिक कीमत, संविधान उल्लंघन के नतीजों से अधिक स्वीकार्य** है।
- Mr. Yoon's claims of **alleged election fraud** were also **dismissed.**
- योन के **चुनाव में धांधली** के आरोपों को भी **खारिज** कर दिया गया।
- Based on all the above, the court said Mr. Yoon "**abandoned his duty to uphold the Constitution and gravely betrayed the trust** of the sovereign citizens of Korea."



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• इन सभी तथ्यों के आधार पर, अदालत ने कहा कि योन ने "संविधान की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का परित्याग किया" और "कोरिया के नागरिकों के विश्वास से गंभीर विश्वासघात किया"।

• Mr. Yoon will now face a series of **criminal charges** that he was shielded from during his tenure.

• अब योन को कई **आपराधिक आरोपों** का सामना करना पड़ेगा, जिनसे वे अपने कार्यकाल के दौरान **सुरक्षित** थे।

## What is next for South Korea?

### दक्षिण कोरिया का अगला कदम क्या है?

• The **Presidential elections** will be held on **June 3**.

• **राष्ट्रपति चुनाव 3 जून** को होंगे।

• As crowds of **supporters and protestors** clear off the streets, the **interim heads and security forces** are on **high alert** to maintain peace and order.

• जैसे ही **समर्थकों और प्रदर्शनकारियों** की भीड़ सड़कों से हट रही है, **अंतरिम नेतृत्व और सुरक्षा बल उच्च सतर्कता** पर हैं ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे।

• The **PPP** is now in **disarray**, with Mr. Yoon being seen as a **wronged leader** by many of his supporters.

• **पीपीपी (PPP)** अब **अव्यवस्थित** है, और योन को कई समर्थक एक **पीड़ित नेता** के रूप में देख रहे हैं।

• **Lee Jae-Myung** of the **DPK** is the most **favoured contender** for the elections.

• **डीपीके (DPK)** के **ली जे-म्योंग** राष्ट्रपति चुनाव के **सबसे पसंदीदा उम्मीदवार** हैं।

• He had led his party to victory in last year's **parliamentary elections**.

• उन्होंने अपनी पार्टी को पिछले साल के **संसदीय चुनावों** में **जीत दिलाई** थी।

• South Korea also faces an external challenge with the **U.S. imposing 25% "reciprocal tariffs"**.

• दक्षिण कोरिया को **अमेरिका द्वारा 25% "पारस्परिक शुल्क"** लगाए जाने की **बाहरी चुनौती** का भी सामना करना पड़ रहा है।

• Thus, the next President will have to address both **political and economic challenges**.

• इसलिए अगले राष्ट्रपति को **राजनीतिक और आर्थिक दोनों चुनौतियों** से निपटना होगा।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



**TOPICS COVERED GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, IS)**

- 1. Bilateral arrangements taking over multilateralism:  
Finance Minister**  
द्विपक्षीय व्यवस्थाएं बहुपक्षीयता पर हावी: वित्त मंत्री
- 2. Genome study: 180 million genetic variants found in  
9,772 individuals**  
जीनोम अध्ययन: 9,772 व्यक्तियों में 180 मिलियन जेनेटिक वेरिएंट  
पाए गए
- 3. The making of a fruit**  
फल के बनने की प्रक्रिया
- 4. Why is Active Mobility Necessary in India?**  
भारत में सक्रिय गतिशीलता क्यों आवश्यक है?
- 5. Markets recoup after manic Monday**  
अशांत सोमवार के बाद बाजारों में सुधार
- 6. How the oil price plunge complicates Saudi Arabia's  
economic agenda**  
तेल की कीमतों में गिरावट कैसे सऊदी अरब की आर्थिक योजना को  
जटिल बनाती है



# Bilateral arrangements taking over multilateralism: Finance Minister

Sitharaman says rise in global uncertainties, along with the ineffectiveness of multilateral institutions, is driving countries to be more proactive with bilateral arrangements; she denies that India-U.K. trade talks will be accelerated in view of U.S. tariffs

**GS Paper III: External Sector**

LONDON

Countries are prioritising bilateral arrangements in an increasingly fragmented and multipolar world, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Tuesday.

However, she denied that the India-U.K. trade negotiations were going to be sped up because of the tariffs announced by U.S. President Donald Trump, even as she was optimistic that the negotiations would be concluded “sooner rather than later”.

Ms. Sitharaman made the remarks during a moderated discussion on India’s development trajectory, with LSE Professor Nicholas Stern and BJP member and former bureaucrat N.K. Singh at the Indian High Commission in London. Ms. Sitharaman is in London for the 13th India-U.K. Economic and Financial Dialogue (EFD) with her counterpart, U.K. Chancellor Rachel Reeves.

The world was getting more multipolar, and that, along with the ineffectiveness of multilateral institutions, was driving countries to be more proactive with bilateral arrange-



**Economy discourse:** Nirmala Sitharaman addressing a session at the High Commission of India in London on Tuesday. PTI

ments, she said. “Global uncertainties - the imponderables - are multiplying by the day,” she said, arguing that countries could not grapple with all of these and factor them into their policies. Therefore, she said, it was simpler and more effective to look at these challenges through a bilateral lens. “And when bilateral arrangements are being made, you find that ideological or bloc-related affiliations no longer hold,” Ms. Sitharaman said.

“So bilateral arrangements for trade - or for any other reason - are catching up,” she said, adding that economic interests were now part of strategic interests. Bilateralism

would be the way forward at least until multilateral institutions go through a revival and “speak with a certain voice”, she said.

The latest source of uncertainty in the world has been Mr. Trump’s April 2 announcement of tariffs. The U.K. and India face a 10% and 26% tariff, respectively, on their U.S. exports. U.K. Prime Minister Keir Starmer had described this as the start of a “new era” and not a short-term exercise.

Asked if the U.S. tariffs were creating momentum for the U.K. and India to conclude a trade deal, the Minister answered in the negative. India and the U.K. had been negotiating

a deal for “a long time”, she said, pointing to discussions the Modi government had held with the former (Conservative) U.K. governments.

“So it is not as if we are rushing into a U.K. FTA, because something has developed from the U.S. This was to happen a long time ago.” With the new Labour government in the U.K. also showing enthusiasm to conclude a deal, she hoped one could be agreed “sooner rather than later”.

## Pitch for GIFT City

Apart from the Dialogue with Ms. Reeves on Wednesday, Ms. Sitharaman has engagements with the City of London (the London local government that houses the city’s financial district) and its governmental head, the Lord Mayor of London.

During her visit, the Minister is making a pitch for GIFT City, the central business district in Ahmedabad, as a financial services centre in India. This was part of her discussions with the chief of insurance company Prudential PLC, Shriti Vadera, in London on Tuesday - the Finance Minister encouraged Prudential to explore oppor-

tunities in its International Financial Services Centre, in the GIFT City Special Economic Zone.

Other discussions as part of the Dialogue would include a bilateral investment agreement, which the U.K. and India have been discussing in parallel to a trade agreement, the mutual recognition of professional qualifications, and cooperation in the education sphere, the Minister said.

The two sides are expected to discuss opportunities for U.K. universities to set up campuses in India and also look into enhancing the number of Indian students who were studying in the U.K.

India is also seeking to collaborate with U.K. research institutions, she said. Some U.K. educational institutions - such as the University of Southampton - have already set up campuses in India under the National Education Policy (2020).

Queen’s University Belfast has said it will offer courses in GIFT City next year and the University of Surrey is exploring options to set up a campus there next year, the *Guardian* reported.

## Bilateral arrangements taking over multilateralism: Finance Minister

**द्विपक्षीय व्यवस्थाएं बहुपक्षीयता पर हावी: वित्त मंत्री**

Countries are prioritising bilateral arrangements in an increasingly fragmented and multipolar world, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Tuesday.



मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश अब एक विखंडित और बहुध्रुवीय विश्व में द्विपक्षीय व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं।

• However, she denied that the **India-U.K. trade negotiations** were going to be sped up because of the **tariffs announced by U.S. President Donald Trump**, even as she was optimistic that the negotiations would be concluded “**sooner rather than later**”.

हालांकि उन्होंने इनकार किया कि **भारत-यूके व्यापार वार्ताएं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित टैरिफ्स** के कारण तेज़ की जाएंगी, भले ही उन्होंने यह आशा जताई कि यह वार्ताएं **जल्द पूरी होंगी**।

• Ms. Sitharaman made the remarks during a moderated discussion on India's development trajectory, with **LSE Professor Nicholas Stern** and **BJP member N.K. Singh** at the **Indian High Commission in London**.

लंदन में भारतीय उच्चायोग में एलएसई के प्रोफेसर निकोलस स्टर्न और भाजपा सदस्य एन.के. सिंह के साथ भारत के विकास मार्ग पर चर्चा के दौरान श्रीमती सीतारमण ने यह बातें कहीं।

• Ms. Sitharaman is in **London** for the **13th India-U.K. Economic and Financial Dialogue (EFD)** with her counterpart, **U.K. Chancellor Rachel Reeves**.

श्रीमती सीतारमण 13वें भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय संवाद (EFD) में भाग लेने के लिए लंदन में हैं, जहाँ वह यूके की चांसलर रेचल रीव्स से मिलेंगी।

• The world was getting more **multipolar**, and that, along with the **ineffectiveness of multilateral institutions**, was driving countries to be more proactive with **bilateral arrangements**, she said.

उन्होंने कहा कि दुनिया अधिक **बहुध्रुवीय** हो रही है और साथ ही **बहुपक्षीय संस्थाओं की निष्क्रियता** देशों को **द्विपक्षीय व्यवस्थाओं** की ओर अधिक सक्रिय बना रही है।

• “**Global uncertainties** – the imponderables – are multiplying by the day,” she said, arguing that countries could not grapple with all of these and factor them into their policies.

उन्होंने कहा, “**वैश्विक अनिश्चितताएं** – यानी अप्रत्याशित घटनाएं – हर दिन बढ़ रही हैं,” और यह भी कहा कि सभी देशों के लिए इन सभी को अपनी नीतियों में शामिल करना संभव नहीं है।

• Therefore, she said, it was simpler and more effective to look at these challenges through a **bilateral lens**.

इसलिए, उन्होंने कहा, इन चुनौतियों को **द्विपक्षीय दृष्टिकोण** से देखना अधिक सरल और प्रभावी है।

• “And when bilateral arrangements are being made, you find that **ideological or bloc-related affiliations** no longer hold,” Ms. Sitharaman said.

श्रीमती सीतारमण ने कहा, “जब **द्विपक्षीय व्यवस्थाएं** बनाई जाती हैं, तो आप पाते हैं कि **वैचारिक या गुट आधारित संबद्धता** अब मायने नहीं रखती।”



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• “So bilateral arrangements for **trade — or for any other reason —** are catching up,” she said, adding that **economic interests** were now part of **strategic interests**.

उन्होंने कहा, “इसलिए **व्यापार या किसी अन्य कारण से द्विपक्षीय व्यवस्थाएं** तेजी से बढ़ रही हैं,” और जोड़ा कि अब **आर्थिक हित भी रणनीतिक हितों का हिस्सा बन चुके हैं**।

• **Bilateralism** would be the way forward at least until **multilateral institutions** go through a **revival** and “speak with a certain voice,” she said.

उन्होंने कहा कि जब तक **बहुपक्षीय संस्थाएं** एक **नवजीवन** के दौर से नहीं गुजरतीं और एक **सामूहिक स्वर** में नहीं बोलतीं, तब तक **द्विपक्षवाद** ही आगे का रास्ता होगा।

• The latest source of uncertainty in the world has been **Mr. Trump’s April 2 announcement of tariffs**.

दुनिया में अनिश्चितता का नया कारण **2 अप्रैल को श्री ट्रंप द्वारा घोषित टैरिफ** रहा है।

• The **U.K. and India** face a **10% and 26% tariff**, respectively, on their **U.S. exports**.

**यूके और भारत** को अपने **अमेरिकी निर्यात** पर क्रमशः **10% और 26% टैरिफ** का सामना करना पड़ रहा है।

• **U.K. Prime Minister Keir Starmer** had described this as the start of a “**new era**” and not a short-term exercise.

**यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर** ने इसे “**नए युग की शुरुआत**” बताया, ना कि कोई **अल्पकालिक अभ्यास**।

• Asked if the **U.S. tariffs** were creating momentum for the **U.K. and India** to conclude a **trade deal**, the Minister answered in the **negative**.

जब पूछा गया कि क्या **अमेरिकी टैरिफ्स यूके और भारत** के बीच **व्यापार समझौते** को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मंत्री ने इसका **इनकार** किया।

• India and the **U.K.** had been negotiating a deal for a **long time**, she said, pointing to discussions the **Modi government** had held with the former **Conservative U.K. governments**.

उन्होंने कहा कि भारत और **यूके लंबे समय से** इस समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, और **मोदी सरकार** ने पहले की **यूके कंजर्वेटिव सरकारों** के साथ भी चर्चा की थी।

• “So it is not as if we are rushing into a **U.K. FTA**, because something has developed from the U.S. This was to happen a **long time ago**.”

“इसलिए ऐसा नहीं है कि हम **यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** को **अमेरिका के घटनाक्रम** के कारण जल्दबाजी में कर रहे हैं। यह तो **बहुत पहले** ही होना था।”

• With the new **Labour government in the U.K.** also showing **enthusiasm**, she hoped one could be agreed “**sooner rather than later**”.

**यूके में नई लेबर सरकार** द्वारा भी **उत्साह** दिखाने के साथ उन्होंने आशा जताई कि यह समझौता “**जल्द ही**” हो सकता है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



## Pitch for GIFT City

### गिफ्ट सिटी के लिए प्रस्ताव

• Apart from the **Dialogue with Ms. Reeves on Wednesday**, Ms. Sitharaman has engagements with the **City of London** and its **Lord Mayor**.

बुधवार को श्रीमती रीव्स के साथ संवाद के अलावा, श्रीमती सीतारमण की मुलाकात लंदन शहर और उसके लॉर्ड मेयर से भी है।

• During her visit, the Minister is making a **pitch for GIFT City**, the **central business district in Ahmedabad**, as a **financial services centre** in India.

अपनी यात्रा के दौरान, मंत्री गुजरात के अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी को भारत का वित्तीय सेवा केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव रख रही हैं।

• This was part of her discussions with **Prudential PLC chief Shriti Vadera** in London on **Tuesday**.

यह चर्चा मंगलवार को लंदन में प्रूडेंशियल पीएलसी की प्रमुख श्रीति वदेरा के साथ हुई बातचीत का हिस्सा थी।

• The Finance Minister encouraged **Prudential** to explore opportunities in its **International Financial Services Centre**, in the **GIFT City Special Economic Zone**.

वित्त मंत्री ने प्रूडेंशियल को गिफ्ट सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया।

• Other discussions as part of the Dialogue would include a **bilateral investment agreement**, **mutual recognition of professional qualifications**, and **cooperation in education**, the Minister said.

मंत्री ने कहा कि संवाद में अन्य चर्चाओं में द्विपक्षीय निवेश समझौता, पेशेवर योग्यताओं की आपसी मान्यता, और शिक्षा में सहयोग शामिल होंगे।

• The two sides are expected to discuss opportunities for **U.K. universities** to set up **campuses in India** and also look into enhancing the number of **Indian students** studying in the **U.K.**

दोनों पक्षों के बीच यूके विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में कैंपस स्थापित करने और यूके में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की जाएगी।

• India is also seeking to collaborate with **U.K. research institutions**, she said.

उन्होंने कहा कि भारत भी यूके के अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग की तलाश कर रहा है।

• Some **U.K. educational institutions** — such as the **University of Southampton** — have already set up **campuses in India** under the **National Education Policy (2020)**.


कुछ यूके शैक्षणिक संस्थान, जैसे कि साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय, ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के तहत पहले ही भारत में कैंपस स्थापित किए हैं।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



• Queen's University Belfast has said it will offer courses in GIFT City next year, and the University of Surrey is exploring options to set up a campus there next year, the *Guardian* reported.

क़वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट ने कहा है कि वह अगले साल गिफ्ट सिटी में कोर्स शुरू करेगी, और सरे विश्वविद्यालय वहां कैंपस स्थापित करने के विकल्प तलाश रहा है, यह *गार्जियन* ने रिपोर्ट किया।

## Genome study: 180 million genetic variants found in 9,772 individuals

**GS Paper III: S&T**

**R. Prasad**  
CHENNAI

Preliminary findings of the GenomelIndia project, which genotyped 10,074 healthy and unrelated Indians from 85 populations – 32 tribal and 53 non-tribal populations – across India, were published in the journal *Nature Genetics* on Tuesday. Blood samples were collected from nearly 20,000 individuals, of which DNA samples from 10,074 individuals were subjected to whole genome sequencing.

Nearly 100 samples were collected from each population with a median of 159 samples from each non-tribal group and 75 from each tribal group to estimate the relatively rare variants that are important to understand complex diseases.

After excluding two populations, the prelimi-



The samples were collected from 32 tribal and 53 non-tribal populations. ISTOCKPHOTO

ary findings are based on the genetic information of 9,772 individuals – 4,696 male participants and 5,076 female participants. The genome sequence data are deposited in the Indian Biological Data Centre housed in the Regional Centre for Biotechnology in Faridabad, Haryana.

The genomes of Tibeto-Burman tribe, Indo-Euro-

pean tribe, Dravidian tribe, Austro-Asiatic tribe, and continentally admixed outgroup were sequenced. In the case of non-tribes, the genomes of Tibeto-Burman non-tribe, Indo-European non-tribe, and Dravidian non-tribe were sequenced.

### Different variants

In all, 180 million genetic variants were found when the genomes of 9,772 individuals were sequenced. Some of the variants are associated with diseases; some others are rare while some variants are unique to India; and some others are unique to particular communities or small populations.

"We are now trying to find out the implications of these variants," said Dr. Kumarasamy Thangaraj of the Centre for Cellular and Molecular Biology (CSIR-CCMB), Hyderabad, and

one of the corresponding authors of the Comment piece. "We are looking for variants which are functionally relevant – related to diseases, those associated with therapeutic responses or no responses, and those that are causing adverse effects to therapeutic agents."

Dr. Thangaraj said the information on variants associated with specific diseases can be utilised for developing low-cost diagnostic kits and for personalised medicine. "In-depth analyses of 9,772 diverse genomes along with the blood biochemistry and anthropometry data will improve disease diagnostics, predict the genetic basis of drug responses, and kickstart precision medicine efforts in India," the authors write. A detailed paper will be published in the next couple of months.

**Genome study:  
180 million  
genetic variants  
found in 9,772  
individuals**

**जीनोम अध्ययन:  
9,772 व्यक्तियों में  
180 मिलियन**

**जेनेटिक वेरिएंट पाए  
गए**

**Preliminary  
findings of the  
GenomelIndia  
project, which  
genotyped 10,074  
healthy and  
unrelated Indians**

from 85 populations — 32 tribal and 53 non-tribal populations — across India, were published in the journal *Nature Genetics* on Tuesday.

GenomelIndia प्रोजेक्ट की प्रारंभिक खोजें, जिसमें भारत भर के 85 समूहों — 32 जनजातीय और 53 गैर-जनजातीय समूहों — के 10,074 स्वस्थ और असंबंधित भारतीयों का जीनोटाइप किया गया, मंगलवार को नेचर जेनेटिक्स जर्नल में प्रकाशित हुईं।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• Blood samples were collected from nearly **20,000 individuals**, of which **DNA samples from 10,074 individuals** were subjected to **whole genome sequencing**.

लगभग **20,000 व्यक्तियों** से रक्त के नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से **10,074 व्यक्तियों के DNA नमूनों** को **पूर्ण जीनोम अनुक्रमण** के लिए लिया गया।

• Nearly **100 samples** were collected from each population with a median of **159 samples** from each **non-tribal group** and **75 from each tribal group** to estimate the **relatively rare variants** that are important to understand **complex diseases**.

प्रत्येक समूह से लगभग **100 नमूने** एकत्र किए गए, जिसमें प्रत्येक **गैर-जनजातीय समूह** से औसतन **159 नमूने** और प्रत्येक **जनजातीय समूह** से **75 नमूने** लिए गए, ताकि **दुर्लभ वेरिएंट्स** का अनुमान लगाया जा सके जो **जटिल बीमारियों** को समझने में महत्वपूर्ण हैं।

• After excluding **two populations**, the preliminary findings are based on the genetic information of **9,772 individuals** — **4,696 male participants** and **5,076 female participants**.

**दो समूहों** को बाहर करने के बाद, प्रारंभिक निष्कर्ष **9,772 व्यक्तियों** की आनुवंशिक जानकारी पर आधारित हैं — जिनमें **4,696 पुरुष प्रतिभागी** और **5,076 महिला प्रतिभागी** शामिल हैं।

• The genome sequence data are deposited in the **Indian Biological Data Centre** housed in the **Regional Centre for Biotechnology in Faridabad, Haryana**.

जीनोम अनुक्रमण डेटा को **हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी** में स्थित **इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर** में संग्रहीत किया गया है।

• The genomes of **Tibeto-Burman tribe, Indo-European tribe, Dravidian tribe, Austro-Asiatic tribe**, and **continentally admixed outgroup** were sequenced.

**तिब्बती-बर्मी जनजाति, भारतीय जनजाति, द्रविड़ जनजाति, ऑस्ट्रो-एशियाटिक जनजाति, और महाद्वीपीय मिश्रित बाहरी समूह** के जीनोम का अनुक्रमण किया गया।

• In the case of non-tribes, the genomes of **Tibeto-Burman non-tribe, Indo-European non-tribe**, and **Dravidian non-tribe** were sequenced.

**गैर-जनजातियों के मामले में, तिब्बती-बर्मी, भारतीय, और द्रविड़ गैर-जनजातियों के जीनोम का अनुक्रमण** किया गया।

## Different variants

### विभिन्न वेरिएंट्स

• In all, **180 million genetic variants** were found when the genomes of **9,772 individuals** were sequenced.

कुल मिलाकर, **9,772 व्यक्तियों के जीनोम के अनुक्रमण में 180 मिलियन जेनेटिक वेरिएंट्स** पाए गए।

• Some of the variants are associated with **diseases**; some others are **rare** while some variants are **unique to India**; and some others are **unique to particular communities or small**

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



populations.

इनमें से कुछ वेरिएंट्स का संबंध बीमारियों से है; कुछ दुर्लभ हैं, कुछ भारत के लिए विशिष्ट हैं, और कुछ विशिष्ट समुदायों या छोटे समूहों के लिए विशेष हैं।

• “We are now trying to find out the implications of these variants,” said Dr. Kumarasamy Thangaraj of the Centre for Cellular and Molecular Biology (CSIR-CCMB), Hyderabad.

हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CSIR-CCMB) के डॉ. कुमारसामी थंगराज ने कहा, “हम अब इन वेरिएंट्स के प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।”

• “We are looking for variants which are **functionally relevant** — related to **diseases**, those associated with **therapeutic responses or no responses**, and those that are causing **adverse effects** to therapeutic agents.”

“हम ऐसे वेरिएंट्स की तलाश कर रहे हैं जो कार्यात्मक रूप से प्रासंगिक हैं — जैसे बीमारियों से संबंधित, इलाज के प्रति प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया न होने वाले, और जो इलाज के दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं।”

• Dr. Thangaraj said the information on **variants associated with specific diseases** can be utilised for developing **low-cost diagnostic kits** and for **personalised medicine**.

डॉ. थंगराज ने कहा कि विशिष्ट बीमारियों से संबंधित वेरिएंट्स की जानकारी का उपयोग कम लागत वाली डायग्नोस्टिक किट्स और व्यक्तिगत चिकित्सा विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

• “In-depth analyses of **9,772 diverse genomes** along with the **blood biochemistry and anthropometry data** will improve **disease diagnostics**, predict the **genetic basis of drug responses**, and kickstart **precision medicine efforts in India**,” the authors write.

लेखकों ने लिखा कि 9,772 विविध जीनोम्स का रक्त जैव रसायन और मानवशास्त्रीय आंकड़ों के साथ गहराई से विश्लेषण करने से बीमारी की पहचान, दवाओं के प्रति आनुवंशिक प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी, और भारत में सटीक चिकित्सा के प्रयासों की शुरुआत होगी।

• A **detailed paper** will be published in the **next couple of months**.

अगले कुछ महीनों में एक विस्तृत शोध-पत्र प्रकाशित किया जाएगा।



## The making of a fruit

GS Paper III: S&T

Q

**Q: How do fruits ripen?**

**A1:** Ripening of fruits is associated with the process of senescence or

ageing in plants. It involves changes in colour, texture, flavour, sugar content, and acidity, and is influenced by the ripening hormone ethylene. As ripening begins, there is a corresponding increase in respiration, which is followed by increased ethylene production.

It triggers a series of biochemical changes such as lateral growth and loosening of cell walls, resulting in more intercellular spaces, the conversion of starch and organic acids into sugars, hydrolysis of stored materials, decrease in chlorophyll content, with corresponding increase in colouring pigments, and emission of characteristic volatile oils.

— T. Nagendra Pillai of Guruvayoor

**A2:** Colour changes occur due to synthesis of carotenoids (yellow and red) and phenolic compounds like anthocyanins (red and blue). Changes in texture occur by limited degradation of cell walls followed by an increase in



Ripening of fruits is associated with the process of senescence or aging in plants. JONAS KAKAROTO/UNSPASH

polygalacturonase and pectinesterase activity. In bananas and apples, the enzymes phosphorylase and in mangoes amylase break the starch into glucose and sucrose, leading to their sweet taste. Volatile compounds such as ethyl-2-methyl butyrate (in apples) also elicit a sweet smell.

Acidity of fruits is due to the presence of malic acid (in apples, apricots, bananas, cherries, and plums), citric acid (in gooseberry, tomatoes, and peaches), and malic acid and tartaric acid (in grapes).

Ripening is a prerequisite for the development of embryos after fertilisation and for better dispersal of seeds for survival.

— P.S. Dheenadayalan, Coimbatore

**For feedback and suggestions** for 'Science', please write to [science@thehindu.co.in](mailto:science@thehindu.co.in) with the subject 'Daily page'

जैसे ही पकने की प्रक्रिया शुरू होती है, श्वसन दर में वृद्धि होती है, जिसके बाद एथिलीन का उत्पादन बढ़ता है।

• It triggers a series of **biochemical changes** such as **lateral growth and loosening of cell walls**, resulting in more **intercellular spaces**, the **conversion of starch and organic acids into sugars**, **hydrolysis of stored materials**, **decrease in chlorophyll content**, with corresponding **increase in colouring pigments**, and **emission of characteristic volatile oils**.

यह प्रक्रिया कई जैव रासायनिक परिवर्तनों को शुरू करती है जैसे कि कोशिका भित्तियों का ढीला होना, जिससे कोशिकाओं के बीच स्थान बढ़ते हैं, शर्करा और जैविक अम्लों का शर्करा में रूपांतरण, संग्रहित पदार्थों का हाइड्रोलिसिस, क्लोरोफिल की मात्रा में कमी, रंगद्रव्यों में वृद्धि, और विशिष्ट वाष्पशील तेलों का उत्सर्जन।

— T. Nagendra Pillai of Guruvayoor

— गुरुवायूर के टी. नागेन्द्र पिल्लई

## The making of a fruit फल के बनने की प्रक्रिया

**Q: How do fruits ripen?**

**प्रश्न: फल कैसे पकते हैं?**

• **A1:** Ripening of fruits is associated with the process of **senescence or ageing** in plants.

**उत्तर 1: फलों का पकना पौधों में वृद्धावस्था या बुढ़ापे (senescence) की प्रक्रिया से जुड़ा होता है।**

• It involves changes in **colour, texture, flavour, sugar content, and acidity**, and is influenced by the **ripening hormone ethylene**.

**यह प्रक्रिया रंग, बनावट, स्वाद, शर्करा की मात्रा और अम्लता में बदलाव लाती है और यह पकने वाले हार्मोन एथिलीन से प्रभावित होती है।**

• As ripening begins, there is a corresponding increase in **respiration**, which is followed by increased **ethylene production**.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• **A2: Colour changes** occur due to synthesis of **carotenoids** (yellow and red) and **phenolic compounds** like **anthocyanins** (red and blue).

उत्तर 2: रंग में बदलाव कैरोटीनॉइड्स (पीले और लाल) और फिनोलिक यौगिकों जैसे एंथोसायनिन्स (लाल और नीले) के संश्लेषण के कारण होता है।

• Changes in **texture** occur by limited **degradation of cell walls** followed by an increase in **polygalacturonase** and **pectinesterase** activity.

बनावट में बदलाव कोशिका भित्तियों के सीमित विघटन और उसके बाद पॉलीगैलेक्टुरोनेज़ और पेक्टिनेस्टरेज़ की सक्रियता में वृद्धि के कारण होता है।

• In **bananas and apples**, the enzymes **phosphorylase** and in **mangoes amylase** break the **starch into glucose and sucrose**, leading to their **sweet taste**.

केले और सेब में फॉस्फोराइलेज और आम में ऐमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज़ और सुक्रोज़ में तोड़ते हैं, जिससे इनका मीठा स्वाद आता है।

• **Volatile compounds** such as **ethyl-2-methyl butrate** (in apples) also elicit a **sweet smell**.

वाष्पशील यौगिक जैसे कि एथिल-2-मीथाइल ब्यूट्रेट (सेब में) भी मीठी गंध उत्पन्न करते हैं।

• **Acidity of fruits** is due to the presence of **malic acid** (in apples, apricots, bananas, cherries, and plums), **citric acid** (in gooseberry, tomatoes, and peaches), and **malic acid and tartaric acid** (in grapes).

फलों की अम्लता मैलिक एसिड (सेब, खुबानी, केले, चेरी और आलूबुखारा में), साइट्रिक एसिड (आंवला, टमाटर और आड़ू में), और मैलिक एसिड व टार्टरिक एसिड (अंगूर में) की उपस्थिति के कारण होती है।

• **Ripening** is a **prerequisite** for the development of **embryos after fertilisation** and for better **dispersal of seeds for survival**.

पकना निषेचन के बाद भ्रूण के विकास और बीजों के बेहतर वितरण व अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है।



# Why is active mobility necessary in India?

What is active mobility and how is it a sustainable mode of transportation? What is the Karnataka Active Mobility Bill, 2022? How will non-motorised modes of transport increase health benefits? How have other countries integrated active mobility in their infrastructures?

**GS Paper III: Infrastructure**

**Dev Nath Pathak**  
**Ruth Anna A**

**The story so far:**

**S**poradic reports of accidental deaths and injuries of pedestrians, cyclists, street-hawkers, and others in the metro cities of India are on the rise. While urban development in various metro cities include patches of dedicated service lanes for pedestrians and cyclists, motor vehicles tend to ply on them as well. As a result, the risk of accidents are as high on these pathways as on the main roads with vehicular traffic. In such a grim situation, active mobility is the need of the hour.

**What is active mobility?**

Active mobility refers to modes of transportation that use human power instead of a motorised form of mobility. Active modes of transport include walking, cycling, skateboarding, and other non-motorised modes that are used for travel and not recreational activities.

Active mobility in India has gained attention due to increasing traffic congestion, pollution, health concerns, and rising pedestrian deaths. This is accompanied by the growing importance of sustainable transport in national policies like the National Transit Oriented Development (NTOD) policy and the Smart Cities Mission (SCM), along with international efforts such as the Paris Agreement which emphasises reducing carbon emissions and promoting eco-friendly mobility.

Bengaluru's first Bicycle Mayor, Sathya Sankaran, has been a key advocate for cycling and pedestrian-friendly infrastructure since 2018. His efforts contributed to the drafting of the Karnataka Active Mobility Bill, 2022. In 2020, Karnataka recorded the highest number of pedestrian deaths in the country at 13%. Therefore, the Bill aims to promote urban mobility through the



**Towards a healthy city:** Cycling lanes in Bengaluru. SPECIAL ARRANGEMENT

protection of the rights of pedestrians and cyclists. The inherent goal of this bill is to provide a legal structure protecting and promoting active mobility, and ensuring equal access to public space. Several other States are also giving attention to active mobility. Delhi is expanding cycling tracks and pedestrian-friendly streets under its Delhi EV policy. Pune has implemented a Comprehensive Bicycle Plan and developed over 300 km of cycling lanes. Chennai is redesigning roads under the SCM to improve pedestrian safety, while Kochi has introduced a Public Bicycle Sharing (PBS) system to enhance last-mile connectivity.

**What is its significance?**

As stated by the World Health Organization (WHO), active mobility in all its forms has economic, social, environmental, and health benefits. The

economic benefits include reduced household expenditure on fuel and transportation and lower healthcare costs due to enhanced public health. It also boosts local businesses since pedestrian-friendly infrastructure attracts higher foot traffic.

Walking and cycling are sustainable modes of transport as compared to motorised vehicles due to their marginal carbon emissions. They enhance energy security and significantly reduce India's 12% carbon emissions from road transportation. Cities with well-developed infrastructure for active transport report cleaner air and reduced traffic congestion. Moreover, active modes of transport are known to reduce the risk of chronic diseases, improve cardiovascular health, promote mental well-being, and enhance public health among citizens. It is a mode of transportation that makes

cities more vibrant and climate-conscious.

**THE GIST**

**What are the barriers?**

Active mobility remains severely underutilised because urban infrastructure actively discourages it. The lack of adequate pedestrian and cyclist-friendly infrastructure hinders active mobility as a primary mode of transport. As of 2021, more than 85% of roads do not meet the minimum safety requirements for walking and cycling. This is also accompanied by the availability of low-cost, alternative modes of motorised transport. Additionally, extreme weather conditions and long distances of travel discourage people from adopting active modes of transport.

Moreover, social perceptions act as significant barriers. In many regions, cars and bikes are associated with a higher social status. India has a burgeoning number of privately owned motor vehicles plying on the road. According to the Society of Indian Automobile Manufacturers, over 12,000 cars are sold every day in India. High traffic congestion, along with weak enforcement of traffic regulations, makes walking and cycling unsafe.

**How have other countries fared?**

With more than 35,000 km of dedicated cycling lanes, The Netherlands is a global leader in promoting active mobility through cycling. The European Union's Mobility and Transport department prioritises promoting walking and cycling as a means of transport to enable more sustainable mobility. This is accompanied by Vision Zero, which aims to mitigate the number of incidents between pedestrians, cyclists, and motor vehicles. Germany's Berlin Mobility Act mandates wider sidewalks and dedicated cycling lanes, reduced speed limits for motorised vehicles within city limits, and prioritises pedestrians/cyclists in urban planning.

*Dev Nath Pathak, Associate Dean, Faculty of Social Science, South Asian University. Ruth Anna A is a Research Scholar, Christ University.*

Active modes of transport include walking, cycling, skateboarding, and other non-motorised modes that are used for travel and not recreational activities.

Bengaluru's first Bicycle Mayor, Sathya Sankaran, has been a key advocate for cycling and pedestrian-friendly infrastructure since 2018. His efforts contributed to the drafting of the Karnataka Active Mobility Bill, 2022.

With more than 35,000 km of dedicated cycling lanes, The Netherlands is a global leader in promoting active mobility through cycling.

## Why is Active Mobility Necessary in India?

**भारत में सक्रिय गतिशीलता क्यों आवश्यक है?**

**Reports of accidental deaths and injuries of pedestrians, cyclists, street hawkers, and others in metro cities of India are on the rise.**

**भारत के मेट्रो शहरों में पैदल चलने वालों, साइकल सवारों, सड़क पर सामान बेचने वालों और अन्य लोगों के दुर्घटनाओं में मृत्यु और चोटों के मामले बढ़ रहे हैं।**

• Urban development includes some dedicated active service lanes for **pedestrians and cyclists**, but **motor vehicles** often ply on them.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• शहरी विकास में पैदल चलने वालों और साइकल सवारों के लिए कुछ समर्पित सेवा लेन शामिल हैं, लेकिन मोटर वाहन अक्सर इन पर चलते हैं।

• As a result, the risk of accidents on these pathways is as high as on main roads with vehicular traffic.

• इसके परिणामस्वरूप, इन रास्तों पर दुर्घटनाओं का जोखिम मुख्य सड़कों पर वाहन यातायात जितना ही है।

• In such a grim situation, **active mobility** is the need of the hour.

• ऐसी गंभीर स्थिति में, **सक्रिय गतिशीलता** अब समय की आवश्यकता है।

## What is Active Mobility?

### सक्रिय गतिशीलता क्या है?

• **Active mobility** refers to modes of transportation that use **human power** instead of a **motorised form of mobility**.

• **सक्रिय गतिशीलता** उस परिवहन के तरीकों को कहा जाता है जो **मानव शक्ति** का उपयोग करते हैं, न कि **मोटर चालित गतिशीलता** का।

• Active modes of transport include **walking, cycling, skateboarding**, and other **non-motorised** modes.

• सक्रिय परिवहन के तरीकों में **पैदल चलना, साइकल चलाना, स्केटबोर्डिंग**, और अन्य **गैर-मोटर चालित** तरीके शामिल हैं।

• Active mobility in India has gained attention due to increasing **traffic congestion, pollution, health concerns**, and rising **pedestrian deaths**.

• भारत में सक्रिय गतिशीलता को बढ़ते हुए **यातायात जाम, प्रदूषण, स्वास्थ्य चिंताएँ**, और **पैदल चलने वालों की मौत** के कारण महत्व मिला है।

• This is accompanied by the growing importance of **sustainable transport** in national policies like **National Transit Oriented Development (NTOD)** policy and the **Smart Cities Mission (SCM)**.

• इसके साथ ही **राष्ट्रीय परिवहन उन्मुख विकास (NTOD)** नीति और **स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)** जैसी राष्ट्रीय नीतियों में **स्थायी परिवहन** का बढ़ता हुआ महत्व है।

• International efforts such as the **Paris Agreement** emphasize reducing **carbon emissions** and promoting **eco-friendly mobility**.

• **पेरिस समझौता** जैसी अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें **कार्बन उत्सर्जन** को घटाने और **पर्यावरणीय रूप से अनुकूल गतिशीलता** को बढ़ावा देने पर जोर देती हैं।



## The Karnataka Active Mobility Bill, 2022

### कर्नाटका सक्रिय गतिशीलता विधेयक, 2022

- Bengaluru's first **Bicycle Mayor**, **Sathya Sankaran**, has been a key advocate for **cycling** and **pedestrian-friendly infrastructure** since 2018.
- बेंगलुरु के पहले साइकल मेयर, सत्य संकर्ण, 2018 से साइकल चलाने और पैदल चलने वालों के अनुकूल बुनियादी ढांचे के प्रमुख समर्थक रहे हैं।
- His efforts contributed to the drafting of the **Karnataka Active Mobility Bill, 2022**.
- उनके प्रयासों ने कर्नाटका सक्रिय गतिशीलता विधेयक, 2022 के मसौदे में योगदान दिया।
- In **2020**, Karnataka recorded the highest number of **pedestrian deaths** in the country at **13%**.
- 2020 में, कर्नाटका ने देश में पैदल चलने वालों की मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा **13%** दर्ज किया।
- The **Bill** aims to promote **urban mobility** through the protection of the rights of **pedestrians** and **cyclists**.
- विधेयक का उद्देश्य पैदल चलने वालों और साइकल सवारों के अधिकारों की सुरक्षा के माध्यम से शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना है।
- The Bill's goal is to provide a **legal structure** protecting and promoting active mobility and ensuring **equal access** to public space.
- विधेयक का उद्देश्य कानूनी संरचना प्रदान करना है जो सक्रिय गतिशीलता को सुरक्षा प्रदान करे और सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच सुनिश्चित करे।

## Non-Motorised Transport and Health Benefits

### गैर-मोटर चालित परिवहन और स्वास्थ्य लाभ

- Active mobility offers **economic, social, environmental, and health benefits**.
- सक्रिय गतिशीलता आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है।
- The **economic benefits** include reduced household expenditure on **fuel** and **transportation**.
- आर्थिक लाभ में ईंधन और परिवहन पर घरेलू खर्च में कमी शामिल है।
- It also lowers **healthcare costs** due to enhanced **public health** from increased physical activity.
- यह बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधि से बेहतर जन स्वास्थ्य के कारण स्वास्थ्य देखभाल लागत को भी कम करता है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- **Pedestrian-friendly infrastructure** attracts higher foot traffic, boosting **local businesses**.
- पैदल चलने वालों के अनुकूल बुनियादी ढांचा उच्च पैर यातायात को आकर्षित करता है, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है।

## Integration of Active Mobility in Other Countries

### अन्य देशों में सक्रिय गतिशीलता का समाकलन

- Several States are giving attention to **active mobility**, such as **Delhi, Pune, Chennai**, and **Kochi**.
- कई राज्य सक्रिय गतिशीलता पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे दिल्ली, पुणे, चेन्नई, और कोच्ची।
- **Delhi** is expanding **cycling tracks** and **pedestrian-friendly streets** under its **Delhi EV policy**.
- दिल्ली अपनी दिल्ली ईवी नीति के तहत साइकल ट्रेक और पैदल चलने वालों के अनुकूल सड़कों का विस्तार कर रहा है।
- **Pune** has developed over **300 km of cycling lanes** as part of its **Comprehensive Bicycle Plan**.
- पुणे ने अपने व्यापक साइकल योजना के तहत 300 किमी से अधिक साइकल लेन विकसित की है।
- **Chennai** is redesigning roads under the **Smart Cities Mission (SCM)** to improve **pedestrian safety**.
- चेन्नई स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के तहत सड़कों का पुनः डिजाइन कर रहा है ताकि पैदल चलने वालों की सुरक्षा बेहतर हो सके।
- **Kochi** has introduced a **Public Bicycle Sharing (PBS)** system to enhance **last-mile connectivity**.
- कोच्ची ने पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग (PBS) सिस्टम शुरू किया है ताकि अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार हो सके।

## Walking and Cycling as Sustainable Transport

### पैदल चलना और साइकिलिंग एक सतत परिवहन के रूप में

- Walking and cycling are **sustainable modes of transport** as compared to **motorised vehicles** due to their **marginal carbon emissions**.
- पैदल चलना और साइकिलिंग की तुलना में मोटर चालित वाहनों के मुकाबले पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनसे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है।
- They enhance **energy security** and significantly reduce India's **12% carbon emissions** from **road transportation**.


**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• ये ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हैं और भारत के सड़क परिवहन से होने वाले 12% कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक घटा सकते हैं।

• Cities with well-developed infrastructure for active transport report cleaner air and reduced traffic congestion.

• जिन शहरों में सक्रिय परिवहन के लिए बेहतर ढांचा होता है, वहां की हवा साफ़ होती है और यातायात जाम भी कम होता है।

• Active modes of transport reduce the risk of **chronic diseases**, improve **cardiovascular health**, promote **mental well-being**, and enhance **public health**.

• सक्रिय परिवहन से दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा कम होता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और जनस्वास्थ्य बेहतर होता है।

• It is a mode of transportation that makes cities more **vibrant** and **climate-conscious**.

• यह एक ऐसा परिवहन तरीका है जो शहरों को अधिक सजीव और जलवायु के प्रति जागरूक बनाता है।

## What are the Barriers?

### बाधाएं क्या हैं?

• Active mobility remains **severely underutilised** because **urban infrastructure** actively discourages it.

• सक्रिय गतिशीलता का उपयोग बहुत कम होता है, क्योंकि शहरी ढांचा इसे अपनाने से रोकता है।

• The lack of adequate **pedestrian** and **cyclist-friendly infrastructure** hinders active mobility as a **primary mode of transport**.

• पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के अनुकूल ढांचे की कमी, सक्रिय गतिशीलता को मुख्य परिवहन तरीका बनने से रोकती है।

• As of **2021**, more than **85% of roads** do not meet the **minimum safety requirements** for **walking and cycling**.

• 2021 तक, 85% से अधिक सड़कों पर पैदल चलने और साइकिलिंग के लिए न्यूनतम सुरक्षा मानकों की पूर्ति नहीं होती थी।

• This is also accompanied by the availability of **low-cost, alternative motorised transport**.

• इसके साथ ही कम लागत वाले वैकल्पिक मोटर चालित परिवहन की उपलब्धता भी एक कारण है।

• Additionally, **extreme weather conditions** and **long travel distances** discourage people from adopting active transport.

• साथ ही, चरम मौसम स्थितियां और लंबी यात्रा की दूरी भी लोगों को सक्रिय परिवहन अपनाने से रोकती हैं।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- **Social perceptions** act as significant barriers, as **cars and bikes** are associated with **higher social status** in many regions.
- सामाजिक धारणा एक बड़ी बाधा बनती है क्योंकि कई क्षेत्रों में कार और बाइक को उच्च सामाजिक दर्जे से जोड़ा जाता है।
- India has a burgeoning number of **privately owned motor vehicles** on the roads.
- भारत में सड़कों पर निजी स्वामित्व वाले मोटर वाहनों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है।
- According to the **Society of Indian Automobile Manufacturers**, over **12,000 cars** are sold **every day** in India.
- सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स के अनुसार, भारत में हर दिन 12,000 से अधिक कारें बेची जाती हैं।
- High **traffic congestion** and **weak enforcement** of traffic rules make **walking and cycling unsafe**.
- अत्यधिक यातायात जाम और ट्रैफिक नियमों का कमजोर क्रियान्वयन, पैदल चलने और साइकिलिंग को असुरक्षित बनाता है।

## How Have Other Countries Fared?

### अन्य देशों का प्रदर्शन कैसा रहा है?

- With more than **35,000 km of dedicated cycling lanes**, **The Netherlands** is a **global leader** in promoting **active mobility**.
- 35,000 किमी से अधिक समर्पित साइकिलिंग लेनों के साथ, नीदरलैंड्स सक्रिय गतिशीलता को बढ़ावा देने में वैश्विक अग्रणी है।
- The **European Union's Mobility and Transport department** prioritises promoting **walking and cycling** as sustainable transport.
- यूरोपीय संघ का गतिशीलता और परिवहन विभाग, पैदल चलने और साइकिलिंग को स्थायी परिवहन के रूप में प्राथमिकता देता है।
- This is accompanied by **Vision Zero**, which aims to mitigate **incidents** between **pedestrians, cyclists, and motor vehicles**.
- इसके साथ ही, विज़न ज़ीरो योजना का उद्देश्य पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और मोटर वाहनों के बीच होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है।
- **Germany's Berlin Mobility Act** mandates **wider sidewalks, dedicated cycling lanes, reduced speed limits**, and prioritises **pedestrians/cyclists** in **urban planning**.
- जर्मनी का बर्लिन मोबिलिटी एक्ट चौड़ी फुटपाथ, समर्पित साइकिलिंग लेन, गति सीमा में कमी, और शहरी योजना में पैदल यात्रियों / साइकिलिस्टों को प्राथमिकता देने का आदेश देता है।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



# Markets recoup after manic Monday

Stock markets rebound sharply on Tuesday, a day after facing the worst drubbing in 10 months, with benchmark Sensex recouping 1,089 points; NSE Nifty recovers 1.7% to 22,535.85 points after tanking more than 3% in the previous session

**GS Paper III: Capital Market**

MUMBAI

India's benchmark NSE Nifty recovered 1.7% to 22,535.85 points on Tuesday after tanking more than 3% in the previous session, providing the much-needed respite to investors.

The Nifty opened at 22,446.75 points, about 285 points more than the previous close and slipped to an intra day low of 22,270.85 points.

The index reached a high of 22,697.20, a couple of hours before the market closed. Investors broke the



**Steady start:** All sectoral indices were in the green, in a reversal from the previous day's trend. PTI

three-day losing trend on Tuesday's trading session.

All sectoral indices were in the green, in a reversal from the previous day's trend. Media and enter-

tainment stocks traded 4.72% higher than the previous close followed by financial services index, which was up 3.34% over the Monday's close. The

metals index increased to a bare minimum of 1.23%.

The BSE Sensex, too, rose 1.49% to 74,227.08 points on Tuesday. All Sensex firms, except Power Grid, ended in the positive territory. Titan, Bajaj Finance, SBI, L&T, Axis Bank, Bajaj Finserv, Asian Paints and Zomato were the biggest gainers.

"Overall market sentiment shifted to bullish, as evidenced by a strong advance-decline ratio on the BSE, surging to 3.57, the highest since June 6, 2024, indicating widespread buying interest," said Nandish Shah, deputy vice presi-

dent, HDFC Securities.

This, however, may not mean good news. "Despite this recovery of more than 950 points from yesterday's low, the overall trend remains down, as the Nifty is still positioned below its five-day EMA. Support for the Nifty has moved up to 22,341, while resistance is placed in the range of 22,800-22,900," he added.

Among Asian markets, Tokyo's Nikkei 225 index, Hong Kong's Hang Seng, Shanghai SSE Composite index and South Korea's KOSPI settled in the positive territory.

(With PTI inputs)

## Markets recoup after manic Monday

### अशांत सोमवार के बाद बाजारों में सुधार

Stock markets rebound sharply on Tuesday, a day after facing the worst drubbing in 10 months, with benchmark Sensex recouping 1,089 points; NSE Nifty recovers 1.7% to 22,535.85 points after tanking more than 3% in the previous session.

मंगलवार को शेयर बाजारों में तेज़ उछाल आया, जब उन्होंने पिछले 10 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट झेली थी; संसेक्स ने 1,089 अंक की भरपाई की, और एनएसई निफ्टी 1.7% बढ़कर 22,535.85 अंक पर पहुंच गया, जबकि पिछले सत्र में इसमें 3% से अधिक की गिरावट हुई थी।

• India's benchmark NSE Nifty recovered 1.7% to 22,535.85 points on Tuesday after tanking more than 3% in the previous session, providing the much-needed respite to investors.



भारत के बेंचमार्क एनएसई निफ्टी ने मंगलवार को 1.7% की बढ़त के साथ 22,535.85 अंक पर पहुंचकर, पिछले सत्र में 3% से अधिक की गिरावट के बाद निवेशकों को राहत दी।

• The Nifty opened at **22,446.75 points**, about **285 points** more than the previous close and slipped to an intra-day low of **22,270.85 points**.

निफ्टी ने **22,446.75 अंक** पर शुरुआत की, जो पिछले बंद स्तर से लगभग **285 अंक** अधिक था और दिन के भीतर **22,270.85 अंक** तक गिर गया।

• The index reached a high of **22,697.20**, a couple of hours before the market closed.

बाज़ार बंद होने से कुछ घंटे पहले सूचकांक **22,697.20 के उच्च स्तर** पर पहुंच गया।

• Investors broke the **three-day losing trend** on Tuesday's trading session.

निवेशकों ने मंगलवार के कारोबारी सत्र में **तीन दिनों की गिरावट की प्रवृत्ति** को तोड़ दिया।

• All sectoral indices were in the green, in a reversal from the previous day's trend.

सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में रहे, जो पिछले दिन की प्रवृत्ति के विपरीत था।

• **Media and entertainment stocks** traded **4.72% higher** than the previous close followed by **financial services index**, which was up **3.34%** over Monday's close.

**मीडिया और एंटरटेनमेंट शेयर** पिछले बंद स्तर से **4.72% ऊपर** कारोबार कर रहे थे, इसके बाद **वित्तीय सेवाओं का सूचकांक** आया, जो सोमवार के मुकाबले **3.34%** बढ़ा।

• The **metals index** increased to a bare minimum of **1.23%**.

**मेटल्स इंडेक्स** में **1.23%** की मामूली बढ़त देखी गई।

• The **BSE Sensex**, too, rose **1.49% to 74,227.08 points** on Tuesday.

**बीएसई सेंसेक्स** में भी मंगलवार को **1.49% की वृद्धि** हुई और यह **74,227.08 अंक** पर पहुंच गया।

• All **Sensex firms**, except **Power Grid**, ended in the positive territory.

**पावर ग्रिड** को छोड़कर **सभी सेंसेक्स कंपनियां** सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुईं।

• **Titan, Bajaj Finance, SBI, L&T, Axis Bank, Bajaj Finserv, Asian Paints and Zomato** were the biggest gainers.

**टाइटन, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, एलएंडटी, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स और जोमैटो** सबसे बड़े लाभार्थी रहे।

• "Overall market sentiment shifted to **bullish**, as evidenced by a strong **advance-decline ratio on the BSE**, surging to **3.57**, the highest since **June 6, 2024**, indicating widespread buying interest," said **Nandish Shah**, deputy vice president, **HDFC Securities**.

**एचडीएफसी सिक्योरिटीज** के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट **नंदिश शाह** ने कहा, "कुल मिलाकर बाजार की भावना तेज़ी



वाली (bullish) रही, जैसा कि बीएसई पर मजबूत advance-decline ratio से स्पष्ट है, जो 3.57 तक पहुंच गया — यह 6 जून 2024 के बाद सबसे अधिक है — और यह व्यापक खरीदारी रुचि को दर्शाता है।"

• This, however, may not mean good news.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अच्छी खबर ही है।

• "Despite this recovery of more than 950 points from yesterday's low, the overall trend remains down, as the Nifty is still positioned below its five-day EMA.

"कल के निचले स्तर से 950 से अधिक अंकों की रिकवरी के बावजूद, कुल प्रवृत्ति अभी भी नीचे की ओर है, क्योंकि निफ्टी अभी भी अपनी पांच-दिवसीय ईएमए से नीचे है।"

• Support for the Nifty has moved up to 22,341, while resistance is placed in the range of 22,800–22,900," he added.

उन्होंने आगे कहा, "निफ्टी के लिए समर्थन स्तर अब 22,341 पर आ गया है, जबकि प्रतिरोध स्तर 22,800–22,900 के बीच है।"

• Among Asian markets, Tokyo's Nikkei 225 index, Hong Kong's Hang Seng, Shanghai SSE Composite index, and South Korea's Kospi settled in the positive territory.

एशियाई बाजारों में टोक्यो का निक्केई 225 इंडेक्स, हांगकांग का हेंग सेंग, शंघाई एसएसई कंपोज़िट इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सभी सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए।

## How the oil price plunge complicates Saudi Arabia's economic agenda

Benchmark Brent crude oil has neared four-year lows; Oil revenue made up 62% of state budget last year; Kingdom and sovereign fund need more debt, analysts say "Oil giant Aramco, long-time cash cow, slashing 2025 dividends; meanwhile, gold gallops to all-time highs on tariff wars

GS Paper III: Brent Crude

GS Paper II: Regional groupings

Saudi Arabia, with its wealth linked inextricably to oil revenue, faces mounting pressure to raise debt or cut spending after a plunge in crude prices, complicating plans to fund an ambitious agenda to diversify its economy.

Oil prices have tumbled to near four-year lows on fears a trade war will hit global growth and after a surprise decision by some OPEC+ oil producers, including Saudi Arabia, to boost their output plans.

The price decline threatens to erase tens of billions of dollars of Saudi revenue, along with a planned drop in dividends from State-controlled energy giant Saudi Aramco.

The International Monetary Fund and economists estimate Riyadh needs oil prices of more than \$90 a barrel to balance its budget. Benchmark Brent prices slipped below \$65 this week.

While Saudi Arabia funds its Vision 2030 reform programme off Budget, the government needs to spend on mammoth infrastructure projects linked to the programme, which aims to wean the economy off its



Dark days: Shaybah oilfield complex, Saudi may lose billions in revenue on price dip. REUTERS

self-declared "oil addiction." The \$225 billion Public Investment Fund, which is steering Vision 2030, also partly relies on oil, including through its shares in Aramco.

"Saudi Arabia is likely to rely on debt financing, and it will have to delay or scale back some planned contracting awards given 2024 was already in a twin deficit," said Karen Young, senior research scholar at Columbia University's Center on Global Energy Policy, referring to fiscal and current account deficits.

Before the U.S. tariffs announcement, she said analysts had expected Saudi public debt to surge by \$100 billion in the next three years. It jumped 16% to over \$324 billion in

but in its 2025 Budget released in November, it projected a 3.7% fall in total revenue.

Recalibrating finance PIF is also likely to seek additional financing, analysts said. The fund's Governor Yasir Al-Rumayyan said last year it intends to boost annual investments to \$70 billion between 2025 and 2030 from \$40-50 billion. PIF did not comment.

Saudi Arabia was among the largest emerging market debt issuers last year and the government has already raised \$14.4 billion in bonds this year.

PIF, which borrowed \$24.8 billion last year via bonds and loans, has already raised \$11 billion in 2025. Several other state-

linked entities have also raised billions. PIF has ploughed hundreds of billions of dollars into the local economy, in everything from a camel dairy farm to NEOM, a gargantuan futuristic city in the desert.

Projects ahead include the 2029 Asian Winter Games, set to feature artificial snow and a man-made freshwater lake, and the 2034 World Cup, for which 11 new stadiums will be built and others renovated.

The Finance Ministry is "recalibrating and prioritising" spending to ensure the economy, including the private sector, can "catch up" while avoiding "overheating the economy," a spokesperson said.

"We are assessing the re-stand ready to take whatever policy decisions needed to ensure that our fiscal position remains strong," the spokesperson said.

"We remain confident that most of our vision targets are either achieved or on track and we will deliver on the key events we are hosting."

The plunge in oil coincides with geopolitical realignments as U.S. President Donald Trump upends a global economic order in place since World War II.

Trump has pressured OPEC and its de facto leader Saudi Arabia to cut oil prices and urged Riyadh to invest \$1 trillion in the United States. He is due to visit

Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates on his first foreign visit in May.

Gold gallops Meanwhile, gold is the latest gallop to all-time highs has drawn comparisons with the last time political and economic turmoil were the main drivers of record prices, back in 1980. But market players say the nature of this rally - and potentially its ability to endure - look different.

With tensions running high between historic allies over U.S. tariffs, global trade and wars in Ukraine and the Middle East, big powers look unlikely to pull together swiftly this time to resolve the issues driving interest in bullion as a haven from risk, analysts say.

The metal's surge above \$3,000 an ounce, driven by Mr. Trump's new round of tariffs, has been the first time in a long time that geopolitics and economic uncertainty have served as the top factors moving the gold market, HSBC analyst James Steel said.

Spot gold hit a record \$3,167.57 a troy ounce last week and is up 16% so far this year on top of 27% rise in 2024.

While market's trajectory won't be linear, analysts say gold's entry into uncharted territory looks more sustainable than the one seen 45 years ago.

## How the oil price plunge complicates Saudi Arabia's economic agenda

तेल की कीमतों में गिरावट कैसे सऊदी अरब की आर्थिक योजना को जटिल बनाती है

Benchmark Brent crude oil has neared four-year lows.

बेंचमार्क ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें चार साल के निचले स्तर के करीब पहुंच गई हैं।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- **Oil revenue made up 62% of state budget last year.**

पिछले साल, तेल से प्राप्त राजस्व ने 62% सरकारी बजट में योगदान दिया।

- **Kingdom and sovereign fund need more debt, analysts say.**

विशेषज्ञों के अनुसार, सऊदी अरब और उसका स्वायत्त कोष को और अधिक कर्ज की जरूरत है।

- **Oil giant Aramco, long-time cashcow, slashing 2025 dividends.**

तेल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अरामको, जो लंबे समय से लाभ का स्रोत रही है, 2025 के लाभांश में कटौती कर रही है।

- **Meanwhile, gold gallops to all-time highs on tariff wars.**

इस बीच, टैरिफ युद्धों के चलते सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

- **Oil prices have tumbled to near four-year lows on fears a trade war will hit global growth and after a surprise decision by some OPEC+ oil producers, including Saudi Arabia, to boost their output plans.**

तेल की कीमतें चार साल के निचले स्तर तक गिर गई हैं, क्योंकि आशंका है कि व्यापार युद्ध वैश्विक विकास को प्रभावित करेगा और OPEC+ देशों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के फैसले से यह गिरावट आई है।

- **The price decline threatens to erase tens of billions of dollars of Saudi revenue, along with a planned drop in dividends from State-controlled Saudi Aramco.**

इस कीमत गिरावट से सऊदी अरब के अरबों डॉलर के राजस्व पर असर पड़ सकता है, साथ ही राज्य नियंत्रित अरामको से मिलने वाले लाभांश में भी गिरावट होगी।

- **The IMF and economists estimate Riyadh needs oil prices above \$90 per barrel to balance its budget.**

आईएमएफ और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि रियाद को अपना बजट संतुलित करने के लिए \$90 प्रति बैरल से अधिक की तेल कीमतों की आवश्यकता है।

- **Benchmark Brent prices slipped below \$65 this week.**

इस सप्ताह, ब्रेंट की कीमतें \$65 से नीचे गिर गईं।

## Vision 2030

### विजन 2030

- **Saudi Arabia funds its Vision 2030 reform programme off Budget.**

सऊदी अरब विजन 2030 सुधार कार्यक्रम को बजट के बाहर से वित्तपोषित करता है।

- **The government needs to spend on mammoth infrastructure projects linked to the programme.**

सरकार को इस कार्यक्रम से जुड़े विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च करना होगा।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**


**Website : patrioticias.in**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• The **\$925 billion Public Investment Fund (PIF)** also partly relies on oil, including through its shares in Aramco.

**\$925 अरब डॉलर के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF)** की निर्भरता भी आंशिक रूप से तेल पर है, जिसमें अरामको की हिस्सेदारी भी शामिल है।

• "Saudi Arabia is likely to rely on **debt financing**," said Karen Young of Columbia University. कोलंबिया विश्वविद्यालय की करेन यंग ने कहा, "सऊदी अरब संभवतः **कर्ज आधारित वित्तपोषण** पर निर्भर रहेगा।"

• Saudi public debt jumped **16%** to over **\$324 billion in 2024**.  
**2024 में सऊदी सार्वजनिक कर्ज 16% बढ़कर \$324 अरब डॉलर से अधिक हो गया।**

• Aramco's dividends are expected to fall by a **third this year**.  
**इस साल, अरामको के लाभांश में एक-तिहाई की गिरावट आने की संभावना है।**

• The government and PIF will receive about **\$32 billion** and **\$6 billion less**, respectively.  
सरकार और PIF को क्रमशः **\$32 अरब और \$6 अरब कम प्राप्त होंगे।**

• Riyadh has not forecast oil revenue this year but in its **2025 Budget**, it projected a **3.7% fall** in total revenue.  
रियाद ने इस वर्ष के तेल राजस्व का अनुमान नहीं दिया, लेकिन **2025 के बजट में 3.7% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है।**

## Recalibrating Finance

### वित्तीय संतुलन की पुनर्संरचना

• PIF is also likely to seek additional financing, analysts said.  
विशेषज्ञों के अनुसार, PIF अतिरिक्त **वित्तीय संसाधनों** की तलाश कर सकता है।

• PIF intends to boost **annual investments to \$70 billion** between **2025 and 2030**.  
PIF की योजना है कि **2025 से 2030 के बीच वार्षिक निवेश \$70 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाए।**

• Saudi Arabia has already raised **\$14.4 billion in bonds this year**.  
सऊदी अरब ने **इस साल \$14.4 अरब डॉलर के बांड पहले ही जारी कर दिए हैं।**

• PIF, which borrowed **\$24.8 billion last year**, has already raised **\$11 billion in 2025**.  
**पिछले साल \$24.8 अरब डॉलर का कर्ज लेने वाले PIF ने 2025 में \$11 अरब डॉलर पहले ही जुटा लिए हैं।**

• PIF has ploughed hundreds of billions of dollars into the economy, from **camel dairy firms** to **NEOM**.

PIF ने **ऊंट दुग्ध कंपनियों** से लेकर **NEOM** जैसे प्रोजेक्ट्स तक में **सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश किया है।**



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**




- Projects ahead include **2029 Asian Winter Games** and the **2034 World Cup**.  
आगामी परियोजनाओं में **2029 एशियाई विंटर गेम्स** और **2034 विश्व कप** शामिल हैं।
- For the World Cup, **11 new stadiums** will be built and others **renovated**.  
विश्व कप के लिए **11 नए स्टेडियम** बनाए जाएंगे और अन्य **पुनर्निर्मित** किए जाएंगे।
- The Finance Ministry is “recalibrating and prioritising” spending to avoid **overheating the economy**.  
वित्त मंत्रालय **अर्थव्यवस्था के अधिक गर्म होने** से बचने के लिए खर्च को "पुनर्संतुलित और प्राथमिकता" दे रहा है।
- “We remain confident that most of our **vision targets** are either achieved or on track,” a spokesperson said.  
प्रवक्ता ने कहा, "हमें विश्वास है कि हमारे अधिकांश **विजन लक्ष्य** या तो पूरे हो चुके हैं या **प्रगति पर हैं**।"

## Gold Gallops

### सोना तेजी से ऊपर चढ़ा

- Gold is the latest gallop to **all-time highs** has drawn comparisons with **1980**.  
सोने की तेजी से बढ़ती कीमतों ने **1980** की स्थिति से तुलना खींची है।
- **Spot gold hit \$3,167.57 a troy ounce last week**, and is up **16% so far this year**, on top of a **27% rise in 2024**.  
पिछले सप्ताह **स्पॉट गोल्ड \$3,167.57 प्रति ट्रॉय औंस** तक पहुंच गया और यह इस साल अब तक **16%** बढ़ चुका है, जबकि **2024 में 27%** की बढ़ोतरी हुई थी।
- The surge is driven by **Trump's new tariffs, geopolitical tensions, and economic uncertainty**.  
इस वृद्धि को **ट्रंप के नए टैरिफ, भू-राजनीतिक तनाव, और आर्थिक अनिश्चितता** ने प्रेरित किया है।
- Analysts say this gold rally looks **more sustainable** than in **1980**.  
विशेषज्ञों का कहना है कि यह **सोने की तेजी 1980** की तुलना में **अधिक स्थायी** प्रतीत होती है।



## TOPICS COVERED (PCS Special)

### 1. My words distorted: Karnataka Minister on molestation case

मेरे शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा गया: कर्नाटक मंत्री की छेड़छाड़ मामले पर टिप्पणी

### 2. Remove wildlife from Hisar airport ahead of PM's visit: CM Saini

प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले हिसार हवाई अड्डे से वन्यजीव हटाएं: मुख्यमंत्री सैनी

### 3. New Aadhaar app with face ID released for testing

चेहरे की पहचान वाले नए आधार ऐप को परीक्षण के लिए जारी किया गया

## My words distorted Karnataka Minister on molestation case

### PCS Special

Press Trust of India  
BENGALURU

A day after he found himself in a controversy for his remarks over the recent molestation incident in Bengaluru, Karnataka Home Minister G. Parameshwara on Tuesday said, his statement was not understood properly and it was distorted.

The Minister also said that he would express regret if it has caused pain to anyone, especially the women.

Mr. Parameshwara repeatedly asserted that he is someone who believes in the importance of providing safety and protection to women and as the Home Minister he is committed to ensure their safety, and has taken several measures in this regard.

Responding to the incident where a woman was molested while walking in Suddaguntepalya area on April 3, Mr. Parameshwara on Monday had said: "Police are working continuously round-the-clock braving rain and cold. That is why there is peace in Bengaluru. In a big city like Bengaluru, incidents like this do take place here and there."



G. Parameshwara

This statement created a controversy, inviting a strong critic from the Opposition in the National Commission for Women (NCW) too, sought a public apology

"Seeks public apology" "On the directions of NCW Chairperson Vijaya Raje Kar, the Commission strongly objected to the sensitive remarks made Karnataka Home Minister G. Parameshwara on recent Bengaluru molestation case. Such statements trivialise crimes against women. NCW has written to the Hon'ble Governor Hon'ble CM of Karnataka demanding a public apology from the Home Minister and urgent action to strengthen law and order." NCW said in a post on

## My words distorted: Karnataka Minister on molestation case

मेरे शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा गया: कर्नाटक मंत्री की छेड़छाड़ मामले पर टिप्पणी

A day after he found himself in a controversy for his remarks over the recent molestation incident in Bengaluru, Karnataka Home Minister G. Parameshwara on Tuesday said, his statement was not understood properly and it was distorted.

बंगलुरु में हाल की छेड़छाड़ की घटना पर दिए गए बयान के बाद विवाद में घिरने के एक दिन बाद, कर्नाटक के गृहमंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि उनका बयान सही ढंग से नहीं समझा गया और तोड़ा-मरोड़ा गया।

• The Minister also said that he would express regret if it has caused pain to anyone, especially the women.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



मंत्री ने यह भी कहा कि अगर उनके बयान से किसी को, विशेष रूप से महिलाओं को दुख पहुंचा है, तो वह खेद प्रकट करेंगे।

• Mr. Parameshwara repeatedly asserted that he is someone who **believes in the importance of providing safety and protection to women**, and as the **Home Minister**, he is **committed** to ensure their **safety**, and has taken **several measures** in this regard.

श्री परमेश्वर ने बार-बार यह दोहराया कि वह **महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व** में विश्वास रखते हैं और **गृह मंत्री** के रूप में वे उनकी **सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध** हैं, और इस दिशा में **कई कदम** उठाए गए हैं।

• Responding to the incident where a woman was **molested while walking in Suddaguntepalya area on April 3**, Mr. Parameshwara on **Monday** had said: **“Police are working continuously round-the-clock** braving rain and cold. That is why there is peace in Bengaluru. In a **big city like Bengaluru**, incidents like this do take place here and there.”

**3 अप्रैल को सुद्धगुंटेपल्या इलाके में एक महिला के साथ चलने के दौरान हुई छेड़छाड़ की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए**, श्री परमेश्वर ने **सोमवार** को कहा था: **“पुलिस लगातार चौबीसों घंटे काम कर रही है, बारिश और ठंड का सामना कर रही है। इसी वजह से बेंगलुरु में शांति है। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में इस तरह की घटनाएं इधर-उधर हो जाती हैं।”**

• This statement had created a **controversy**, eliciting a **strong criticism** from the **Opposition BJP**; the **National Commission for Women (NCW)** too had sought a **public apology**.

इस बयान ने **विवाद** पैदा कर दिया, और इसे लेकर **विपक्षी बीजेपी** ने **कड़ी आलोचना** की; साथ ही **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** ने भी **सार्वजनिक माफी** की मांग की।

### ‘Seeks public apology’

#### ‘सार्वजनिक माफी की मांग’

• “On the directions of **NCW Chairperson Vijaya Rahatkar**, the Commission has **strongly objected** to the **insensitive remarks** made by **Karnataka Home Minister G. Parameshwara** on the recent **Bengaluru molestation case**.

**NCW अध्यक्ष विजय राहतकर** के निर्देश पर आयोग ने हाल ही में हुए **बेंगलुरु छेड़छाड़ मामले पर कर्नाटक के गृहमंत्री जी. परमेश्वर** द्वारा की गई **असंवेदनशील टिप्पणी** पर **कड़ा विरोध दर्ज** किया है।

• Such statements **trivialise crimes against women**.

इस तरह के बयान **महिलाओं के खिलाफ अपराधों को तुच्छ** बनाते हैं।

• **NCW has written to the Hon’ble Governor & Hon’ble CM of Karnataka** demanding a **public apology** from the Home Minister and **urgent action to strengthen law and order**,” NCW said in a post on ‘X’.


**NCW ने कर्नाटक के माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें गृहमंत्री से सार्वजनिक**

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



माफी और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है," NCW ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा।

# Remove wildlife from Hisar airport ahead of PM's visit: CM Saini

PCS

**The Hindu Bureau**

GURUGRAM

Amid contradictory reports of the Haryana Forest Department on the presence of wildlife inside the Hisar airport, slated to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on April 14, Chief Minister Nayab Saini on Tuesday directed the officials to sanitise the entire premises to make it free from any wildlife.

Mr. Saini was in Hisar to review the preparations for Mr. Modi's visit. The Chief Minister said there should not be any wild animal inside the airport premises and all animals be caught and taken to appropriate place, said a press state-



The DGCA granted licence to Maharaja Agrasen Airport in Hisar in mid-March.

ment issued by the government's PR Department.

The Directorate General of Civil Aviation had, in mid-March, granted an aerodrome licence to Maharaja Agrasen Airport in Hisar, allowing it to be used as a regular landing and departure site for aircraft.

**Remove wildlife from Hisar airport ahead of PM's visit: CM Saini**

**प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले हिसार हवाई अड्डे से वन्यजीव हटाएं: मुख्यमंत्री सैनी**

Amid contradictory reports of the Haryana Forest Department on the presence of wildlife inside the Hisar airport, slated to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on April 14, Chief Minister Nayab Saini on Tuesday directed the officials to sanitise the entire premises to make it free from any wildlife.

हरियाणा वन विभाग की ओर से हिसार हवाई अड्डे के भीतर वन्यजीवों की मौजूदगी पर आ रही विरोधाभासी रिपोर्टों के बीच, जिसे 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटित करने वाले हैं, मुख्यमंत्री

नायब सैनी ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे परिसर को साफ कर वन्यजीव मुक्त किया जाए।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



• Mr. Saini was in Hisar to review the preparations for Mr. Modi's visit.

श्री सैनी हिसार में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे थे।

• The Chief Minister said there should not be any **wild animal** inside the **airport premises** and all animals be **caught and taken to appropriate place**, said a **press statement** issued by the government's **PR Department**.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे परिसर में कोई भी जंगली जानवर नहीं होना चाहिए और सभी जानवरों को पकड़कर उपयुक्त स्थान पर पहुंचाया जाए, यह बात सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस बयान में कही गई।

• The **Directorate General of Civil Aviation** had, in **mid-March**, granted an **aerodrome licence** to **Maharaja Agrasen Airport in Hisar**, allowing it to be used as a **regular landing and departure site** for aircraft.


नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मार्च के मध्य में हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को एयरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया था, जिससे यह हवाई अड्डा अब विमानों की नियमित लैंडिंग और टेकऑफ के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



# New Aadhaar app with face ID released for testing

PCS

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

A new Aadhaar app will be released by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) soon, Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw said at the Aadhaar Samvaad event in Delhi on Tuesday. For now, it's available to only a small group of users.

The new app has a revamped design, compared with the existing mAadhaar app. It has a facial recognition feature to securely share Aadhaar data with "requesting" entities without the need to share a hard copy.

"Now, with just a tap, users can share only the necessary data, giving them complete control over their personal information," Mr. Vaishnaw said.

## New Aadhaar app with face ID released for testing

चेहरे की पहचान वाले नए आधार ऐप को परीक्षण के लिए जारी किया गया

A new Aadhaar app will be released by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) soon, Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw said at the Aadhaar Samvaad event in Delhi on Tuesday.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम में कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा एक नया आधार ऐप जल्द ही जारी किया जाएगा।

• For now, it's available to only a **small group of users**.

फिलहाल यह केवल कुछ सीमित उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध है।

• The new app has a **revamped design**, compared with the existing **mAadhaar app**.

नया ऐप मौजूदा mAadhaar ऐप की तुलना में पुनः डिज़ाइन किया गया इंटरफेस प्रदान करता है।

• It has a **facial recognition feature** to securely share **Aadhaar data** with "requesting" entities without the need to share a **hard copy**.

इसमें एक चेहरे की पहचान (facial recognition) फीचर है जिससे आधार डेटा को सुरक्षित रूप से "अनुरोध करने वाली संस्थाओं" के साथ साझा किया जा सकता है, बिना हार्ड कॉपी दिए।

• "Now, with just a tap, users can share only the **necessary data**, giving them **complete control** over their **personal information**," Mr. Vaishnaw said.

श्री वैष्णव ने कहा, "अब सिर्फ एक टैप से उपयोगकर्ता केवल आवश्यक डेटा साझा कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर पूरा नियंत्रण मिलेगा।"

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**